


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25—मार्च 31, 2017 (चैत्र 4, 1939)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25—MARCH 31, 2017 (CHAITRA 4, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2017

रक्षा (एम एस)

सं. 36, दिनांक 10 जनवरी 2017—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 दिसम्बर, 2016 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

पैदल सेना :

आई सी—34605एन ले.जन. राकेश शर्मा, उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे., पैदल सेना

आई सी—34019एल ले.जन. डी एस हुडा, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे.** (सेवानिवृत्त) पैदल सेना के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी 2017 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

पैदल सेना :

आई सी—35137एल ले.जन. पी एम हरीज, अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे., यांत्रिक पैदल सेना

आई सी—34356ए ले.जन. एन एस घई, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे.** (सेवानिवृत्त), पैदल सेना के स्थान पर

रेवती रमन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 37, दिनांक 11 जनवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

एस एस 37815 पूर्व मेजर अनुराग सिंह चौकसे अब टी ए-42972पी लैपटीनेन्ट अनुराग सिंह चौकसे को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 24 मार्च 2015 से लैपटीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 07 साल 06 माह तथा 11 दिन (दिनांक 06 मार्च 1999 से 15 सितम्बर 2006) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 13 सितम्बर 2007 से लैपटीनेन्ट के पद पर वरियता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 24 मार्च 2015 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38 (ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18(01)2006/डी (जी एस.1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 13 सितम्बर 2011 से कैप्टन तथा 13 सितम्बर 2015 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

एस एस 39008 एच पूर्व कैप्टन गौरव नेगी अब टी ए-43001डब्ल्यू लैपटीनेन्ट गौरव नेगी को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से लैपटीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 14 साल (दिनांक 03 मार्च 2001 से 02 मार्च 2015) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 23 दिसम्बर 2001 से लैपटीनेन्ट के पद पर वरियता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38 (ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18(01)2006/डी (जी एस.1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2005 से कैप्टन तथा 23 दिसम्बर 2009 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 38, दिनांक 12 जनवरी 2017—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

थल सेना मुख्यालय

थल सेनाध्यक्ष के पद पर

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	थल सेनाध्यक्ष की प्रभावी तिथि
आई सी-35471 जनरल बिपिन रावत, यु वाई एस एम, ए वी एस एम, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम, ए डी सी 11 जी आर	01.01.17

महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-35471 जनरल बिपिन रावत, यु वाई एस एम, ए वी एस एम, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम, ए डी सी 11 जी आर	01.01.17

एस के शर्मा
निदेशक
एम एस (एक्स)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

एम एस (डी)

सं. 39, दिनांक 13 जनवरी 2017—निम्नांकित को वायु सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कॉमोडोर-इन-चीफ का अवैतनिक पद दिया जाता है :-

एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी 01 जनवरी 2017
वायु सेना अध्यक्ष
रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (एयर)
वायु भवन
नई दिल्ली-110011

ए के पान्डे
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (एम एस)

सेना शाखा

सं. 40, दिनांक 16 जनवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

लै. कर्नल बनाया जाता है

मेजर सोमनाथ कुन्दू	टीए(एम)-1202	(ए.एम.सी टीए)	21 जनवरी 2014
--------------------	--------------	---------------	---------------

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 41, दिनांक 17 जनवरी 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना
रक्षा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी)	पी एस एन स्वामी	(जेसी-724446ए)	01 अक्टूबर 2016
	स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (जी डी)	श्याम नारायण सिंह	(जेसी-843061एम)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	चरण सिंह	(जेसी-843068डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	टी अशोक कुमार	(जेसी-843069वाई)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	ए भास्करन	(जेसी-843070एन)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	वर्गीस पी ए	(जेसी-843074के)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	के टी नारायणन कुट्टी	(जेसी-843076पी)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	देवान सी	(जेसी-843077एक्स)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	जी वेणुगोपालन	(जेसी-843078ए)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	प्रेम नाथ सिंह	(जेसी-829195ए)	02 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	अर्जुन बहादुर थापा	(जेसी-607473वाई)	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	जगदीश चंद	(जेसी-519708एक्स)	01 नवम्बर 2016

नायब सूबेदार (जी डी)	काश्मीर सिंह	(जेसी-499192डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	प्रेम सिंह	(जेसी-419716एफ)	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार (जी डी)	श्याम लाल	(जेसी-810551ए)	01 दिसम्बर 2016
स्थाई सूबेदार लिपिक (एस डी) के रैंक में			
नायब सूबेदार लिपिक (एसडी)	नीलमणि सिन्हा	(जेसी -843138 के)	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार लिपिक (एसडी)	राम किशोर	(जेसी -843141 के)	01 दिसम्बर 2016

आर पी एस नेगी
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 42, दिनांक 18 जनवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

स्थायी थल सेना

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार (क्लर्क एस डी)

नायब सूबेदार	अर्जुन सिंह	जेसी-699855ए	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	सुभाष मण्डल	जेसी-699943डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	योगराम बावने	जेसी-699944वाई	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	नारायण पानीग्राही	जेसी-699945एफ	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	अश्वनी कुमार दास	जेसी-699946के	02 मई 2016 /
नायब सूबेदार	शिव पाल सिंह पाल	जेसी-699902एम	01 मई 2016
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार शर्मा	जेसी-699990एन	01 मई 2016
नायब सूबेदार	यादव दिलिप विलास राव	जेसी-699991डब्लू	01 मई 2016
नायब सूबेदार	बाटले नामदेउ नरायण	जेसी-700046पी	01 मई 2016
नायब सूबेदार	अम्बारे संजय हरिश चन्द्र	जेसी-699992वाई	02 जून 2016 /
नायब सूबेदार	घिवारी रामचन्द्र गनपति	जेसी-699993एफ	01 मई 2016
नायब सूबेदार	पाडुलकर गुलाब दन्नु	जेसी-699994के	02 मई 2016 /
/(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	भोसले अशोक रामु	जेसी-699995एम	08 जून 2016 / /
नायब सूबेदार	महामुनी प्रसाद काशी नाथ	जेसी-699996पी	01 जून 2016
नायब सूबेदार	अरागे लक्ष्मण अपाशु	जेसी-699997एक्स	14 जून 2016 / /
नायब सूबेदार	गवाली दत्तातरे जालीड़	जेसी-699998ए	06 जून 2016 / /
नायब सूबेदार	चोगले शिवाजी खेरु	जेसी-699999एच	07 जून 2016 / /
नायब सूबेदार	यादव मानीक दन्नोबा	जेसी-700058के	08 जून 2016 / /
नायब सूबेदार	तालेकर दन्नेशवर यशवन्त	जेसी-700059एम	07 जून 2016 / /
नायब सूबेदार	बरकाडे विठल नाना	जेसी-700060एफ	01 जून 2016
नायब सूबेदार	दन्डे अर्जुन निवरुती	जेसी-700061के	27 जुलाई 2016 / /
नायब सूबेदार	रमेश पाल	जेसी-700062एम	04 जून 2016 / /

नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार शर्मा	जेसी-700063पी	20 जून 2016//
// (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	विनय कुमार	जेसी-700064एक्स	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	डी रवी कुमार	जेसी-700065ए	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	सुन्दर लाल	जेसी-700066एच	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	राजबीर सिंह	जेसी-700252वाई	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	अखिलेश चन्द्र दूबे	जेसी-700253एफ	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	दिवारी लाल	जेसी-700254के	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	सतबीर सिंह	जेसी-700533पी	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	राम नाथ सिंह यादव	जेसी-700267एफ	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	दिलबाग	जेसी-700268के	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	कदम राजेन्द्र अन्ना	जेसी-700269एम	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	कुम्भार कृष्णनत गनपती	जेसी-700270एफ	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	अरुन कुमार	जेसी-700271के	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	श्री कृष्णा वर्मा	जेसी-700272एम	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	हरी ओम	जेसी-700274एक्स	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	हरताज सिंह	जेसी-700333वाई	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	सुबे सिंह यादव	जेसी-700334एफ	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	नथुनी यादव	जेसी-700335के	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	राजेन्द्र कुमार	जेसी-700336एम	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	प्रदीव कुमार खुन्टीया	जेसी-700337पी	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	अनीरुद यादवा	जेसी-700338एक्स	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	हरी शंकर	जेसी-700339ए	20 अगस्त 2016//
नायब सूबेदार	मनोज कुमार महाराणा	जेसी-700340पी	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	सत्यावर्ता सामन्ता	जेसी-700341एक्स	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	सवपन कुमार दास	जेसी-700342ए	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	सुसील कुमार मन्ना	जेसी-700343एच	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	परमजीत सिंह	जेसी-700344एल	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	नाबोदा कुमार झा	जेसी-700345एन	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	बिश्वाजीत मुखर्जी	जेसी-700346डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	सुर्जया नारायण चौधरी	जेसी-700347वाई	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	त्रीभुवन चन्द्र पाठक	जेसी-700348एफ	01 अगस्त 2015
// (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)			
स्थायी सूबेदार (एस के टी)			
पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायब सूबेदार	सुमीत भौमिक	जेसी-699742एक्स	01 मार्च 2016

नायब सूबेदार	देवकटे युवराज त्रीबाक राव	जेसी-699743ए	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	ब्राजेन्द्र सिंह	जेसी-699744एच	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	विध्या संजय कुमार	जेसी-699745एल	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	यादव यातेन्द्र सिंह रामेश्वर डी	जेसी-699746एन	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	राजेन्द्र प्रसाद यादली	जेसी-699748वाई	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	सौमित्रा कुमार दास	जेसी-699749एफ	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	अनिल एन पी	जेसी-699750डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	देवेन्द्रा नाथ दिक्षित	जेसी-699836पी	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	जय सिंह	जेसी-699837एक्स	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	प्रवीन कुमार शर्मा	जेसी-699838ए	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	अजय पनवर	जेसी-699840एक्स	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	विजय सिंह	जेसी-699841ए	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	गिरीश बाबु सी	जेसी-699842एच	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	सुशील कुमार	जेसी-699843एल	01 मई 2016
नायब सूबेदार	राम बालक दास	जेसी-699845डब्ल्यू	01 मई 2016
नायब सूबेदार	मनोज कुमार शर्मा	जेसी-699950एम	01 मई 2016
नायब सूबेदार	अजय कुमार सिंह	जेसी-699951पी	01 मई 2016
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्रा मिश्रा	जेसी-700154वाई	01 मई 2016
नायब सूबेदार	विश्वाजीत परिया	जेसी-700033एक्स	01 मई 2016
नायब सूबेदार	रविन्द्र राणा	जेसी-700034ए	01 मई 2016
नायब सूबेदार	सतीश सिंह	जेसी-700035एच	01 मई 2016
नायब सूबेदार	सुखवीर सिंह	जेसी-700036एल	25 जून 2016 /
नायब सूबेदार	भगवती प्रसाद	जेसी-700037एन	30 जुलाई 2016 /
नायब सूबेदार	चन्दन सिंह	जेसी-700010डब्ल्यू	17 जून 2016 /
नायब सूबेदार	दलजीत सिंह	जेसी-700011वाई	09 जून 2016 /
नायब सूबेदार	रविन्द्र साहू	जेसी-700012एफ	14 जून 2016 /
नायब सूबेदार	भुवण चन्द्रा पन्थ	जेसी-700048ए	11 जुलाई 2016 /
/(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	प्रदीपन पाम्बल्ली	जेसी-700151एल	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	दीपक दास	जेसी-700013के	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	हरेन्द्रा सिंह रावत	जेसी-700014एम	07 जुलाई 2016 / /
नायब सूबेदार	सिंह जयराज हीरा	जेसी-700015पी	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	वसानाथन के एस	जेसी-700217डब्ल्यू	14 जुलाई 2016 / /
नायब सूबेदार	सुनील कुमार जे	जेसी-700016एक्स	18 जुलाई 2016 / /
नायब सूबेदार	जीवन कुमार	जेसी-700134एल	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	बलबीर सिंह	जेसी-700135एन	01 जुलाई 2016

नायब सूबेदार	अलेगजेन्डर जोरज			जेसी-700049एच	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	निरंजन कुमार			जेसी-700136डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	पवन कुमार			जेसी-700017ए	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र नाथ			जेसी-700018एच	22 जुलाई 2016//
नायब सूबेदार	अवदेश			जेसी-700019एल	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	भुपेन्द्र सिंह खरायत			जेसी-700020ए	01 जुलाई 2016
// (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)					
नायब सूबेदार	कान्ती प्रसाद			जेसी-700021एच	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	दलवीर सिंह रावत			जेसी-700155एफ	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	तपस मण्डल			जेसी-700304के	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	अनिल कुमार			जेसी-700255एम	13 अगस्त 2016// //
नायब सूबेदार	अरविन्द कुमार सिंह			जेसी-700256पी	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	दिनेश कुमार शर्मा			जेसी-700257एक्स	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	रंजन कुमार डे			जेसी-700258ए	01 अगस्त 2016
// // (सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)					
स्थायी नायब सूबेदार (पी टी ए)					
हवलदार	अनीश वी के	13987716एच	अब	जेसी-701133पी	01 नवम्बर 2015
हवलदार	सेलवम एस	13987968पी	अब	जेसी-701281ए	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	सी सुदाश	13987964वाई	अब	जेसी-701266एल	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	नल्ला धानुनजयुदु	13988091एल	अब	जेसी-701267एन	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	पलानी सामी जे	13988072ए	अब	जेसी-701303एन	01 जनवरी 2016
हवलदार	ओम प्रकाश द्विवेदी	13988165पी	अब	जेसी-701294एक्स	01 जनवरी 2016
हवलदार	मोइरंगथेम खोमदन मैती	13988344पी	अब	जेसी-701309पी	01 जनवरी 2016
हवलदार	प्रभात कुमार त्रिपाठी	13988464एन	अब	जेसी-701295ए	01 जनवरी 2016
हवलदार	संजय कुमार	13988751एक्स	अब	जेसी-701300ए	01 जनवरी 2016
हवलदार	गोरे अनिल कुमार गजेन्द्रा	13989114एन	अब	जेसी-701316एल	01 जनवरी 2016
हवलदार	करीछेती श्रीधर	13989388वाई	अब	जेसी-701317एन	01 फरवरी 2016
हवलदार	गुरराम हरी नाथ	13989424वाई	अब	जेसी-701432एन	01 अप्रैल 2016
हवलदार	कुमार डी	13989532एच	अब	जेसी-701433डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
हवलदार	अजीत सिंह यादव	13989685एम	अब	जेसी-701434वाई	01 अप्रैल 2016
हवलदार	प्रावंजन बिस्वाल	13989757एल	अब	जेसी-701435एफ	01 अप्रैल 2016
हवलदार	विनय कुमार वर्मा	13989767पी	अब	जेसी-701436के	01 अप्रैल 2016
स्थायी नायब सूबेदार (ब्लड ट्रान्सफ्यूजन असिस्टेन्ट)					
हवलदार	स्याम आर	13980398एफ	अब	जेसी-700755के	01 मार्च 2015
हवलदार	कन्दासामी एन	13986905ए	अब	जेसी-700756एम	01 मार्च 2015

हवलदार	पाटील अमरदीप शाम राव	13986985एच	अब	जेसी-700789एक्स	01 मई 2015
हवलदार	अरविन्द कुमार यादव	13987055एन	अब	जेसी-700906एक्स	15 मई 2015'
'(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	प्रीत सिंह	13987081पी	अब	जेसी-700929वाई	01 जुलाई 2015
हवलदार	जगत सिंह गोबारी	13987628एम	अब	जेसी-701003एम	01 अगस्त 2015
हवलदार	पद्मा राम जुनावा	13987669डब्लू	अब	जेसी-701071ए	01 सितम्बर 2015
हवलदार	भैरब दत्त जोशी	13987728एक्स	अब	जेसी-701146एम	09 अक्टूबर 2015''
''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	राकेश कुमार	13988006एक्स	अब	जेसी-701231पी	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह दानु	13988129के	अब	जेसी-701575एन	01 जून 2016
स्थायी नायब सूबेदार (एस टी ए)					
हवलदार	जाधव भाउ साहेब कारामारी	13985386डब्लू	अब	जेसी-701429एन	01 मार्च 2016'''
हवलदार	महेन्द्रा कुलहरी	13985729एफ	अब	जेसी-701155एन	17 नवम्बर 2015'''
हवलदार	के पी साजु	13986480एम	अब	जेसी-701156डब्लू	01 नवम्बर 2015
'''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	जाधव नन्द कुमार रामदास	13985275वाई	अब	जेसी-701228पी	01 दिसम्बर 2015 /
/ (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 28 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सी दुरई बाबु	13986948पी	अब	जेसी-701296एच	01 जनवरी 2016 / /
हवलदार	बृज किशोर पाल	13987975एल	अब	जेसी-701229एक्स	01 दिसम्बर 2015
/ / (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सेकर आर	13989528ए	अब	जेसी-701445एल	01 अप्रैल 2016
हवलदार	थान्ग सियान मांग	13990090एफ	अब	जेसी-701446एन	01 अप्रैल 2016
हवलदार	दिलीप कुमार	13991595के	अब	जेसी-701447डब्लू	01 अप्रैल 2016
हवलदार	जितेन्द्रा सिंह दियोल	13991812पी	अब	जेसी-701448वाई	01 अप्रैल 2016
हवलदार	बेलावालेकर मारुती बाजी राव	13991912ए	अब	जेसी-701449एफ	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सुधीर कुमार	13993009पी	अब	जेसी-701530एन	01 अप्रैल 2016
स्थायी नायब सूबेदार (डेंटल हाईजीनिस्ट)					
हवलदार	पाटील रविन्द्रा विठल	13990844एल	अब	जेसी-701431एल	01 मार्च 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सुकमल देबनाथ	13994123वाई	अब	जेसी-701140एल	20 अक्टूबर 2015 /
हवलदार	नरेन्द्र सिंह	13994066एच	अब	जेसी-701082एम	01 सितम्बर 2015
(/ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	आर्याब्रत दास	13993934एक्स	अब	जेसी-701213एम	12 नवम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	इजहुमलाई ए	13994249वाई	अब	जेसी-700645पी	10 नवम्बर 2015!
हवलदार	गजावेल्ली नरसिम्हारामुलु	13994429एफ	अब	जेसी-701179एक्स	20 अक्टूबर 2015!
(!नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)					

हवलदार	इलान्गबम मोहेन्द्रो सिंह	13994470एक्स	अब	जेसी-701269वाई	01 दिसम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	मोहीबुर रहमान	13994654डब्लू	अब	जेसी-701230एम	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	तरुण कुमार	13994510एन	अब	जेसी-701312पी	01 फरवरी 2016
हवलदार	अजय कुमार ठाकुर	13994533पी	अब	जेसी-701313एक्स	01 फरवरी 2016
हवलदार	महादिक प्रकाश मारुती	13994936पी	अब	जेसी-701314ए	01 फरवरी 2016
हवलदार	राज बिन्द्र सिंह	13994955ए	अब	जेसी-701515वाई	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राकेश कुमार बराले	13995253एन	अब	जेसी-701516एफ	01 अप्रैल 2016
हवलदार	विनोद सिंह राठोर	13995265एच	अब	जेसी-701517के	01 अप्रैल 2016
हवलदार	जी कमल बाबू	13995360पी	अब	जेसी-701601के	01 जून 2016
हवलदार	सत्येन्द्रा जयसवाल	13995393ए	अब	जेसी-701602एम	01 जून 2016
स्थायी नायब सूबेदार (डेंटल आप्रेशन रूम असिस्टेंट)					
हवलदार	दिनेश कुमार सिंह	13995719एल	अब	जेसी-701184एच	07 नवम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	तरसेम सिंह	13996092एच	अब	जेसी-701183ए	10 नवम्बर 2015!
हवलदार	जाधव प्रशांत लक्ष्मन राव	13996242एन	अब	जेसी-701211एफ	16 नवम्बर 2015!
हवलदार	मनीराम जाखड	13996338डब्लू	अब	जेसी-701198एच	12 नवम्बर 2015!
हवलदार	रमेश एन सावंत	13996431एक्स	अब	जेसी-701195पी	01 नवम्बर 2015
!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	प्रदीप कुमार शर्मा	13996426एम	अब	जेसी-701234एच	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	आर धामोथरन	13996492पी	अब	जेसी-701406एम	01 मार्च 2016!!
हवलदार	शेख खाजा हुसैन	13996446ए	अब	जेसी-701235एल	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	राकेश कुमार शर्मा	13996379ए	अब	जेसी-701574एल	01 जून 2016!!
हवलदार	मनोज कुमार	13996376एम	अब	जेसी-701279एच	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	अरुन कुमार ओझा	13996418एन	अब	जेसी-701236एन	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	प्रभाकरन आर	13996559एच	अब	जेसी-701306एफ	27 फरवरी 2016!!
हवलदार	लिंगाराजु चंद्र गिरी	13996517डब्लू	अब	जेसी-701280एक्स	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	संजय महतो	13996480ए	अब	जेसी-701440एम	01 अप्रैल 2016!!
हवलदार	उदय प्रताप	13996675एल	अब	जेसी-701237डब्लू	01 दिसम्बर 2015
!!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	एस अलागु	13996856डब्लू	अब	जेसी-701308एम	01 जनवरी 2016
हवलदार	तारापथी नायडु डी	13996445एक्स	अब	जेसी-701297एल	01 जनवरी 2016
हवलदार	मनोज जार्ज	13996908एफ	अब	जेसी-701232एक्स	01 जनवरी 2016
हवलदार	देवेन्द्राया माथापती	13996977एक्स	अब	जेसी-701233ए	01 जनवरी 2016
हवलदार	नरेन्द्र सिंह शेखावत	13997176एच	अब	जेसी-701321डब्लू	16 जनवरी 2016!!!
!!! (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)					

हवलदार	राजेश बिसवास	13997259एन	अब	जेसी-701322वाई	01 फरवरी 2016
हवलदार	अजीत कुमार तिवारी	13998568एच	अब	जेसी-701323एफ	01 फरवरी 2016
हवलदार	मुकेश कुमार तेतरवाल	13998798डब्लू	अब	जेसी-701324के	01 फरवरी 2016
हवलदार	मनोज कुमार शर्मा	13998901डब्लू	अब	जेसी-701667ए	15 जून 2016/
/ (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
स्थायी नायब सूबेदार (हेल्थ असिस्टेन्ट)					
हवलदार	सुरेश कुमार	13988258के	अब	जेसी-701577वाई	01 जून 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	राजेन्द्रा यादव	13988247एक्स	अब	जेसी-701099ए	01 नवम्बर 2015/
हवलदार	गोबीन सी एच बोराह	13988382एल	अब	जेसी-701578एफ	01 जून 2016/
(/नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सुनील कुमार जी	13988531एन	अब	जेसी-701001एफ	01 अगस्त 2015
हवलदार	वाई वी कृष्णा राव	13988520एफ	अब	जेसी-701002के	01 अगस्त 2015
हवलदार	जितेन्द्र सिंह सेंगर	13988567एम	अब	जेसी-701092डब्लू	01 सितम्बर 2015
हवलदार	प्रेम चन्द्रा	13988555एक्स	अब	जेसी-701093वाई	14 सितम्बर 2015//
(//नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	केलाश सिंह यादव	13988550वाई	अब	जेसी-701142डब्लू	05 अक्टूबर 2015///
हवलदार	प्रमोद सिंह कन्याल	13988584एम	अब	जेसी-701143वाई	08 अक्टूबर 2015///
हवलदार	सुधीर कुमार	13988552के	अब	जेसी-701144एफ	07 अक्टूबर 2015///
हवलदार	विनोद कुमार	13988720एक्स	अब	जेसी-701180एम	17 अक्टूबर 2015///
हवलदार	राम सिंह	13987239एम	अब	जेसी-701145के	16 अक्टूबर 2015///
हवलदार	राजेश कुमार	13988704ए	अब	जेसी-701100के	01 अक्टूबर 2015
(///नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	उमेश कुमार चौधरी	13988670एक्स	अब	जेसी-701263एक्स	03 नवम्बर 2015!
हवलदार	सुमेर	13988661डब्लू	अब	जेसी-701132एम	02 नवम्बर 2015!
हवलदार	बद्री नाथ सिंह	13988671ए	अब	जेसी-701194एम	10 नवम्बर 2015!
(!नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	अशीस कुमार रॉय	13988748एक्स	अब	जेसी-701272वाई	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	पवार अशोक श्रीरंग	13988810वाई	अब	जेसी-701273एफ	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	मक्खन लाल गुप्ता	13988923एफ	अब	जेसी-701270एन	07 जनवरी 2016!!
(!!नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016से दी जायेगी।)					
स्थायी नायब सूबेदार (लैब असिस्टेन्ट)					
हवलदार	वेंकादेसन के	13987319के	अब	जेसी-701416डब्लू	01 मार्च 2016'
हवलदार	सरवनन बी	13987322के	अब	जेसी-701417वाई	01 मार्च 2016'
'(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	राम प्रसाद	13987615पी	अब	जेसी-701418एफ	01 मार्च 2016''

हवलदार	नागेश्वर राव निलापु	13987770डब्लू	अब	जेसी-701419के	01 मार्च 2016''
हवलदार	रमेश कुमार जामवाल	13987781एच	अब	जेसी-701532वाई	08 अप्रैल 2016''
हवलदार	बृज भूषण	13988033एफ	अब	जेसी-701533एफ	01 अप्रैल 2016''
हवलदार	पलविन्द्र सिंह	13988053पी	अब	जेसी-701534के	01 अप्रैल 2016''
''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	पी महेश कुमार	13988191डब्लू	अब	जेसी-701535एम	01 अप्रैल 2016
''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	प्रदीप कुमार सेन	13990788एक्स	अब	जेसी-701536पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	पित्ता प्रशान्थ रेड्डी	13991418के	अब	जेसी-701537एक्स	10 अप्रैल 2016'''
हवलदार	जी वी एस बी राव गुल्लीपल्ली	13991419एम	अब	जेसी-701538ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	विजया सुरेश पी	13991465एफ	अब	जेसी-701539एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सिवान्गा राजु कासीराजु	13991663एम	अब	जेसी-701540एक्स	01 अप्रैल 2016
हवलदार	मोहन चन्द्र जोशी	13991748एच	अब	जेसी-701541ए	01 अप्रैल 2016
'''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	बालाराम जी	13991829एच	अब	जेसी-701607एल	01 जून 2016
हवलदार	पी सन्तोष कुमार	13991826पी	अब	जेसी-701608एन	01 जून 2016
हवलदार	जगदीप कुमार	13992097के	अब	जेसी-701609डब्लू	01 जून 2016
हवलदार	स्वपन कुमार दास	13992231के	अब	जेसी-701631एफ	20 जून 2016 /
/ (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	जी श्रीधर रेड्डी	13992486के	अब	जेसी-701632के	01 जुलाई 2016
हवलदार	बिबेका प्रसाद सिंह	13992654एक्स	अब	जेसी-701633एम	01 जुलाई 2016
हवलदार	मुरली कृष्णन एस पी	13992818एच	अब	जेसी-701634पी	01 जुलाई 2016
हवलदार	प्रवेन्द्रा कुमार राठी	13993004डब्लू	अब	जेसी-701635एक्स	01 जुलाई 2016
हवलदार	देवासीस पाल	13993123एम	अब	जेसी-701636ए	01 जुलाई 2016
हवलदार	श्रीमान्ता बाग	13993127एच	अब	जेसी-701637एच	01 जुलाई 2016
हवलदार	लक्ष्मण सिंह मेहता	13992018के	अब	जेसी-701639एन	01 अगस्त 2016
स्थायी नायब सूबेदार (ओपरेशन रूम असिस्टेन्ट)					
हवलदार	मृतुन्जय सिंह	13987122एन	अब	जेसी-701409ए	01 मार्च 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	गोविन्द सिंह कारकी	13987388ए	अब	जेसी-701450डब्लू	13 अप्रैल 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	प्रभू लाल राठोर	13987474एल	अब	जेसी-701004पी	21 सितम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	के पत्ताभी रामा राव	13987769एफ	अब	जेसी-701005एक्स	01 अगस्त 2015
हवलदार	भूपाल सिंह	13987730पी	अब	जेसी-701087एल	01 सितम्बर 2015
हवलदार	छतर पाल	13987658के	अब	जेसी-701088एन	01 सितम्बर 2015

हवलदार	राजेन्द्रा प्रसाद मिश्रा	13987676एम	अब	जेसी-701089डब्लू	01 सितम्बर 2015
हवलदार	बलवीर सिंह	13987592वाई	अब	जेसी-701090एल	01 सितम्बर 2015
हवलदार	सुरेश कुमार चौहान	13987782एल	अब	जेसी-701091एन	01 सितम्बर 2015
हवलदार	चैन सिंह राठोड	13987720एल	अब	जेसी-701167एच	02 नवम्बर 2015'
हवलदार	शैलेन्द्रा कुमार सुमन	13987825पी	अब	जेसी-701136एच	10 अक्टूबर 2015'
हवलदार	संजय कुमार थापा	13987852वाई	अब	जेसी-701318डब्लू	23 अक्टूबर 2015'
हवलदार	विजया कुमार आर	13987965एफ	अब	जेसी-701301एच	11 दिसम्बर 2015'
हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	13988023एक्स	अब	जेसी-701134एक्स	17 अक्टूबर 2015'
हवलदार	हरीश चन्द्रा	13988031डब्लू	अब	जेसी-701135ए	16 अक्टूबर 2015'
'(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	बाल कृष्णा मिश्रा	13988039एच	अब	जेसी-701168एल	02 नवम्बर 2015''
हवलदार	मनोज कुमार	13988019पी	अब	जेसी-701169एन	01 नवम्बर 2015
हवलदार	मुरारी लाल यादव	13988161वाई	अब	जेसी-701305वाई	01 नवम्बर 2015
हवलदार	सुरेन्द्रा कुरूप वी	13989803पी	अब	जेसी-701170एच	01 नवम्बर 2015
हवलदार	कमल कुमार	13990212ए	अब	जेसी-701171एल	01 नवम्बर 2015
''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	गवास प्रकास नेमाजी	13990458वाई	अब	जेसी-701250ए	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	निर्मल कुमार लोहमी	13987729ए	अब	जेसी-701251एच	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	रामवीर सिंह	13990614एक्स	अब	जेसी-701299डब्लू	07 दिसम्बर 2015'''
हवलदार	सतीश कुमार एम	13990709एक्स	अब	जेसी-701252एल	01 दिसम्बर 2015
'''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	दिनेश चन्द्रा	13990663ए	अब	जेसी-701292एम	01 जनवरी 2016
हवलदार	सुभाष रेड्डी पी	13990698डब्लू	अब	जेसी-701293पी	01 जनवरी 2016
हवलदार	संकर पी	13990785के	अब	जेसी-701325एम	01 फरवरी 2016
हवलदार	चरनजीत सिंह	13986579एच	अब	जेसी-701400एल	01 फरवरी 2016
हवलदार	दीपक कुमार त्रिपाठी	13988041ए	अब	जेसी-701354एफ	01 फरवरी 2016
हवलदार	बी रमण जानिया रेड्डी	13991221एन	अब	जेसी-701326पी	01 फरवरी 2016
हवलदार	मंगल जीत सिंह	13991403एफ	अब	जेसी-701327एक्स	01 फरवरी 2016
हवलदार	कुपेन्दी रान्त	13991460एच	अब	जेसी-701328ए	01 फरवरी 2016
हवलदार	पी कुबेन्द्रन	13991650पी	अब	जेसी-701329एच	01 फरवरी 2016
हवलदार	गुलबहार सिंह	13991567एक्स	अब	जेसी-701330एक्स	01 फरवरी 2016
हवलदार	रवी शेकर	13991800ए	अब	जेसी-701331ए	01 फरवरी 2016
हवलदार	गुरुपदा रॉय	13991726के	अब	जेसी-701332एच	01 फरवरी 2016
हवलदार	चौधरी संतोष मालहरी	13991753एन	अब	जेसी-701410पी	01 मार्च 2016
हवलदार	अनील कुमार	13991728पी	अब	जेसी-701411एक्स	01 मार्च 2016
हवलदार	रमेश बाबु बी	13991833एल	अब	जेसी-701412ए	01 मार्च 2016

हवलदार	सैयद अब्दुल अहमद	13991914एल	अब	जेसी-701451वाई	01 अप्रैल 2016
हवलदार	दिवाकर सिंह	13990123एफ	अब	जेसी-701452एफ	01 अप्रैल 2016
हवलदार	कोटान्गले हुसेन धनराज	13991994एन	अब	जेसी-701521एम	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सकुरे रावासाहेब माधव	13992026एच	अब	जेसी-701453के	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राजेश एन	13992194एफ	अब	जेसी-701454एम	01 अप्रैल 2016
हवलदार	वी कारथीगईवनन	13992184एक्स	अब	जेसी-701455पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	कृष्ण कुमार	13992069एक्स	अब	जेसी-701456एक्स	12 अप्रैल 2016!!
हवलदार	श्रधाकर साहू	13992280एम	अब	जेसी-701457ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	नरेश कुमार	13992604एम	अब	जेसी-701553पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	दिनेश वी पी	13992847एक्स	अब	जेसी-701458एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	भोसंले रोहीदास अम्बादास	13992864एक्स	अब	जेसी-701459एल	01 अप्रैल 2016
हवलदार	कृष्णा भुषण	13992879ए	अब	जेसी-701460ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	उमेश पाल सिंह	13992894पी	अब	जेसी-701461एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	शैलेन्द्र कुमार ओझा	13992997एन	अब	जेसी-701554एक्स	01 अप्रैल 2016
!!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	राजीब गुप्ता	13993125एक्स	अब	जेसी-701603पी	01 जून 2016
हवलदार	मो0 हुमायुं हुसैन	13993255ए	अब	जेसी-701604एक्स	01 जून 2016
हवलदार	अशोक कुमार	13993395एम	अब	जेसी-701605ए	01 जून 2016
स्थायी नायब सूबेदार (फार्मासिस्ट)					
हवलदार	जॉयदेव बेशा	13994785एफ	अब	जेसी-701214पी	12 नवम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	पंकज सलारिया	13995114के	अब	जेसी-701426ए	15 मार्च 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	मनोज कुमार जोशी	13995554एक्स	अब	जेसी-701427एच	04 मार्च 2016'
हवलदार	मो0 असलम खान	13995550एफ	अब	जेसी-701164पी	17 नवम्बर 2015'
'(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	गुरमीत सिंह	13996017वाई	अब	जेसी-701565के	16 अप्रैल 2016''
हवलदार	सुरज करमाकर	13996152एम	अब	जेसी-701522पी	04 अप्रैल 2016''
हवलदार	दिलीप कुमार पाण्डे	13992398एन	अब	जेसी-701282एच	07 दिसम्बर 2015''
हवलदार	रामर के	13997476के	अब	जेसी-701566एम	02 मई 2016''
''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 08 मई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	पाटील राजेन्द्रा शिवाजी	13996244वाई	अब	जेसी-701165एक्स	01 नवम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	हरी मोहन	13997713एच	अब	जेसी-701166ए	01 नवम्बर 2015
हवलदार	टेक चन्द्रा त्यागी	13997715एन	अब	जेसी-701298एन	08 दिसम्बर 2015'''
हवलदार	मनोज कुमार उपाध्याय	13997717वाई	अब	जेसी-701283एल	03 दिसम्बर 2015'''
'''(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					

हवलदार	अमिताभ सिंह	13997738पी	अब	जेसी-701224वाई	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	दुबे लाल साहू	13998606एन	अब	जेसी-701225एफ	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	भास्कर दास	13998613के	अब	जेसी-701253एन	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	रोहीत कुमार साहू	13998607डब्लू	अब	जेसी-701254डब्लू	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	राजन सिंह	13998681एक्स	अब	जेसी-701226के	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	13998739के	अब	जेसी-701227एम	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	सतेन्द्रा सिंह असवाल	13998764एच	अब	जेसी-701310के	11 फरवरी 2016!
हवलदार	पवार सुरेश तुलसीदास	13998777ए	अब	जेसी-701355के	01 फरवरी 2016
हवलदार	रोहीतासव कुमार लिगरी	13998859एच	अब	जेसी-701311एम	01 फरवरी 2016
!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	नरेन्द्रा कुमार त्यागी	13997716डब्लू	अब	जेसी-701428एल	01 मार्च 2016
हवलदार	धुन्कल राम	13998456एच	अब	जेसी-701523एक्स	01 अप्रैल 2016
हवलदार	अजय कुमार सिंह	13998489एन	अब	जेसी-701524ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	धीरेन्द्रा कुमार	13998538एल	अब	जेसी-701525एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	गौरी नाथ	13998630के	अब	जेसी-701567पी	01 जून 2016
हवलदार	बाबुलाल खर्चा	13998755एफ	अब	जेसी-701618एक्स	01 जून 2016
हवलदार	अनील कुमार यादव	13998762एक्स	अब	जेसी-701569ए	02 जून 2016!!
!!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
स्थायी नायब सूबेदार (साइकेट्रिक नर्सिंग सहायक)					
हवलदार	संजय सरकार	13984427एच	अब	जेसी-701271डब्लू	04 जनवरी 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	तारा सिंह वर्ती	13984942पी	अब	जेसी-701352डब्लू	01 फरवरी 2016
हवलदार	सुर्यावंशी भाउसाहेब ग्यानदेव	13985276एफ	अब	जेसी-701353वाई	01 मार्च 2016
हवलदार	राजेन्द्र मलिक	13984311एम	अब	जेसी-701528डब्लू	01 अप्रैल 2016
हवलदार	पुश्कर सिंह धामी	13985880एम	अब	जेसी-701438पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	महेन्द्रा सिंह पनवर	13986750डब्लू	अब	जेसी-701439एक्स	01 मई 2016
स्थायी नायब सूबेदार (डेन्टल टेक्निशियन)					
हवलदार	बिमन सन्त्रा	15414458पी	अब	जेसी-701154एल	02 नवम्बर 2015+
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सोन्कुसाले मनोज शामरावजी	15414812वाई	अब	जेसी-701268डब्लू	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	सजीवन वेलियात	15415233वाई	अब	जेसी-701239एफ	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	सुनील	15415619वाई	अब	जेसी-701437एम	01 अप्रैल 2016++
हवलदार	नरेन्द्रा कुमार सिंह	15416124वाई	अब	जेसी-701238वाई	02 दिसम्बर 2015++
हवलदार	अरुण नाथ एम पी	15418484एन	अब	जेसी-701240डब्लू	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	बी अनानथान	15418717के	अब	जेसी-701241वाई	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	दूबे राजकुमार सुभाष	15418951ए	अब	जेसी-701242एफ	01 दिसम्बर 2015
(++नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)					

हवलदार	हरेन्द्रा गिरी	15418993एम	अब	जेसी-701407पी	01 मार्च 2016
हवलदार	भरत	15419098एन	अब	जेसी-701408एक्स	01 मार्च 2016
हवलदार	जैयायुदीन अनसारी	15420682एक्स	अब	जेसी-701542एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	देवी दास शर्मा	15420922के	अब	जेसी-701597एम	01 जून 2016
स्थायी नायब सूबेदार (एक्सरे असिस्टेंट)					
हवलदार	संजय कुमार यादव	15419009के	अब	जेसी-701141एन	05 अक्टूबर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	हनुमान राम बिश्नोई	15420063के	अब	जेसी-701423एम	15 मार्च 2016!
हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	15420137एन	अब	जेसी-701178पी	29 अक्टूबर 2015!
!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	बॉमबेश्वर सोनावल	15420237वाई	अब	जेसी-701153एच	31 अक्टूबर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	अरुन एस	15420267डब्लू	अब	जेसी-701320एन	12 नवम्बर 2015
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	रोहित कुमार	15420284डब्लू	अब	जेसी-701526एल	07 अप्रैल 2016!!
हवलदार	महेश कुमार रुद्रप्पा वन्नुर	15420331एच	अब	जेसी-701152ए	31 अक्टूबर 2015!!
(!नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	शिशपाल कन्कर	15420473ए	अब	जेसी-701196एक्स	01 नवम्बर 2015
हवलदार	अनिल कुमार गोण्ड	15420504पी	अब	जेसी-701285डब्लू	05 दिसम्बर 2015!!!
हवलदार	सुजीथ कुमार एम जे	15420527डब्लू	अब	जेसी-701275एम	01 दिसम्बर 2015!!!
(!!!नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	प्रकाश क्रुरछेती	15420553एक्स	अब	जेसी-701276पी	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	युगल भुषण	15420573एल	अब	जेसी-701256एफ	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	भुपेन्द्रा सिंह	15420581के	अब	जेसी-701277एक्स	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	हबीबुल हक्क	15419017एच	अब	जेसी-701420वाई	01 फरवरी 2016/
हवलदार	रविन्द्रा कुमार त्रिपाठी	15419143पी	अब	जेसी-701257के	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	राज शेखर सिंह	15419288ए	अब	जेसी-701258एम	01 दिसम्बर 2015
हवलदार	भुपेन्द्रा सिंह	15419789ए	अब	जेसी-701259पी	01 दिसम्बर 2015
(/नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	जगताप संतोष राम भाउ	15420408ए	अब	जेसी-701284एन	01 जनवरी 2016
हवलदार	पार्थ नन्दी	15420520एम	अब	जेसी-701421एफ	08 फरवरी 2016//
हवलदार	नयजु बी	15420609वाई	अब	जेसी-701543एल	26 मार्च 2016//
हवलदार	गोल्हे राजेश प्रभाकर	15420610एन	अब	जेसी-701556एच	06 अप्रैल 2015//
हवलदार	रोहित कमल	15420757के	अब	जेसी-701422के	01 फरवरी 2016
(/नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	शशी कुमार	15420776पी	अब	जेसी-701531डब्लू	05 मई 2016//
हवलदार	कड सन्दीप जालीन्दर	15420944एच	अब	जेसी-701424पी	01 मार्च 2016

हवलदार	लोकेश कुमार शर्मा	15420999एम	अब	जेसी-701425एक्स	01 मार्च 2016
/// (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	प्रमोद कुमार त्रिपाठी	15421126एन	अब	जेसी-701598पी	19 मई 2016
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सीरज यादव	15421416एल	अब	जेसी-701743एफ	06 जुलाई 2016+
हवलदार	अवताडे समाधान हनमन्त	15421440एफ	अब	जेसी-701599एक्स	06 जून 2016+
हवलदार	मोरे चेतन रावसाहेब	15421446एच	अब	जेसी-701600एफ	01 जून 2016
हवलदार	निकम गणेश मुगुतराव	15421449डब्लू	अब	जेसी-701619ए	06 जून 2016+
+(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
स्थायी नायब सूबेदार (क्लक एस डी)					
हवलदार	खान्डेकर नरूल अमीन	13979370पी	अब	जेसी-701669एल	18 जून 2016 /
/(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।)					
हवलदार	बालकरन सिंह	13989175एल	अब	जेसी-701392एक्स	01 मार्च 2016
हवलदार	मुरलीधरन सी एम	13989317एक्स	अब	जेसी-701393ए	01 मार्च 2016
हवलदार	जोध राज नागर	13989533एल	अब	जेसी-701394एच	01 मार्च 2016
हवलदार	रामेश चन्द्रा पाल	13989599एफ	अब	जेसी-701395एल	01 मार्च 2016
हवलदार	प्रदीप कुमार चौहान	13989596एन	अब	जेसी-701396एन	01 मार्च 2016
हवलदार	कमलेश कुमार मिश्रा	13989592एक्स	अब	जेसी-701397डब्लू	01 मार्च 2016
हवलदार	बलदेव राज	13989602डब्लू	अब	जेसी-701398वाई	01 मार्च 2016
हवलदार	राजेश कुमार वर्मा	13989586के	अब	जेसी-701443ए	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सरावर हुसैन	13989555के	अब	जेसी-701442एक्स	01 अप्रैल 2016
हवलदार	ललन कुमार	13989554एफ	अब	जेसी-701441पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	रविन्द्र सिंह	13989601एन	अब	जेसी-701444एच	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राजेश पाल	13989665वाई	अब	जेसी-701544एन	19 अप्रैल 2016 / /
// (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	कन्हैया पांडे	13989739एच	अब	जेसी-701545डब्लू	02 मई 2016 / / /
हवलदार	चित्ता रंजन राय प्रधान	13989816एम	अब	जेसी-701546वाई	02 मई 2016 / / /
हवलदार	गौतम परीड़ा	13989814एफ	अब	जेसी-701547एफ	01 मई 2016
हवलदार	शंकरण एन	13989817पी	अब	जेसी-701548के	04 मई 2016 / / /
हवलदार	सुशांता कुमार सवाईन	13989815के	अब	जेसी-701549एम	01 मई 2016
हवलदार	महेन्द्र कुमार	13990110के	अब	जेसी-701550एफ	01 मई 2016
हवलदार	जीतेन्द्र मोहन ठाकुर	13990247डब्लू	अब	जेसी-701551के	14 मई 2016 / / /
हवलदार	अब्बास अली शेख	13990331डब्लू	अब	जेसी-701552एम	12 मई 2016 / / /
/// (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	देबाव्राता समान्ता	13990328डब्लू	अब	जेसी-701587एच	01 जून 2016
हवलदार	सुशील कुमार लवानिया	13990384पी	अब	जेसी-701588एल	01 जून 2016

हवलदार	सालगुडे सुग्रीव नवनाथ	13990412डब्लू	अब	जेसी-701589एन	01 जून 2016
हवलदार	ओम बीर	13990430वाई	अब	जेसी-701590एच	01 जून 2016
हवलदार	ओम वीर सिंह	13990465पी	अब	जेसी-701591एल	01 जून 2016
हवलदार	जगदीश प्रसाद	13990509एफ	अब	जेसी-701592एन	02 जून 2016+
हवलदार	सुरेश कुमार	13990539वाई	अब	जेसी-701593डब्लू	01 जून 2016
हवलदार	सुबा रैड्डी रवी पती	13990585एन	अब	जेसी-701594वाई	06 जून 2016+
हवलदार	रंगा नायकुलू बी	13990586डब्लू	अब	जेसी-701595एफ	01 जून 2016
हवलदार	कुंदन सिंह मेहरा	13990662एक्स	अब	जेसी-701596के	01 जून 2016
+(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	अवदेश सिंह यादव	13990627पी	अब	जेसी-701752एच	09 जुलाई 2016++
हवलदार	जयबीर सिंह	13990595एक्स	अब	जेसी-701658वाई	01 जुलाई 2016
हवलदार	कान्ती कारु नायडु	13990790पी	अब	जेसी-701659एफ	01 जुलाई 2016
हवलदार	किल्ली रवी कुमार	13990792ए	अब	जेसी-701660डब्लू	01 जुलाई 2016
हवलदार	टरुनो नारायण रॉव	13990793एच	अब	जेसी-701661वाई	01 जुलाई 2016
हवलदार	चिक्का चन्द्र रॉव	13990794एल	अब	जेसी-701662एफ	01 जुलाई 2016
हवलदार	वाशुदेवा रॉव वाकामुलू	13990795एन	अब	जेसी-701663के	01 जुलाई 2016
हवलदार	महेन्द्र साहू	13991038एल	अब	जेसी-701664एम	01 जुलाई 2016
हवलदार	धीरज मण्डल	13990992डब्लू	अब	जेसी-701665पी	01 जुलाई 2016
हवलदार	उदय चन्द्र राय	13990993वाई	अब	जेसी-701666एक्स	01 जुलाई 2016
++(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	वरेन्द्र कुमार	13990914वाई	अब	जेसी-701685एच	01 अगस्त 2016
हवलदार	राजेश यादव	05451634एफ	अब	जेसी-701686एल	01 अगस्त 2016
हवलदार	प्रमोद कुमार शामल	13991153एल	अब	जेसी-701687एन	01 अगस्त 2016
हवलदार	एम तीरुमुरुगन	13991288एम	अब	जेसी-701688डब्लू	01 अगस्त 2016
हवलदार	गुरनाम सिंह	13991310एम	अब	जेसी-701689वाई	01 अगस्त 2016
हवलदार	जरनैल सिंह मनहास	13991308पी	अब	जेसी-701690एन	01 अगस्त 2016
हवलदार	सुखविन्दर सिंह	13991306के	अब	जेसी-701691डब्लू	01 अगस्त 2016
हवलदार	शक्ती चन्द	13991307एम	अब	जेसी-701693एफ	01 अगस्त 2016
हवलदार	राम रत्न	13991372एम	अब	जेसी-701694के	01 अगस्त 2016
हवलदार	राजकुमार ए	13991405एम	अब	जेसी-701695एम	01 अगस्त 2016
हवलदार	के पलानी कुमार	13991468पी	अब	जेसी-701696पी	01 अगस्त 2016
हवलदार	डाहके राजेश नागराव	13991633पी	अब	जेसी-701697एक्स	03 अगस्त 2016+++
हवलदार	लन्जीवार सुनील भीवा	13991634एक्स	अब	जेसी-701698ए	01 अगस्त 2016
हवलदार	गीवन राम	13991806एफ	अब	जेसी-701699एच	01 अगस्त 2016
हवलदार	अशोक कुमार	13991743के	अब	जेसी-701700एम	01 अगस्त 2016
हवलदार	प्रदीप कुमार दास	13991744एम	अब	जेसी-701701पी	01 अगस्त 2016
हवलदार	नाहर सिंह	13991712के	अब	जेसी-701702एक्स	01 अगस्त 2016

हवलदार	मीका राम गोदारा बिश्नोई	13991807के	अब	जेसी-701703ए	02 अगस्त 2016+++
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	13991745पी	अब	जेसी-701704एच	01 अगस्त 2016
हवलदार	अशोक कुमार	13991843पी	अब	जेसी-701705एल	01 अगस्त 2016
हवलदार	अनाचत्री संजय बासलिंग	13991899एफ	अब	जेसी-701706एन	01 अगस्त 2016
+++ (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)					
स्थायी नायब सूबेदार (एस के टी)					
पद	नाम	सेना संख्या	स्थिति	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
हवलदार	संजीव कुमार नाथ	13984096एम	अब	जेसी-701462एल	01 अप्रैल 2016
हवलदार	दिलीप कुमार मिश्रा	13984491ए	अब	जेसी-701463एन	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राधा कृष्णा केवट	13984525एच	अब	जेसी-701464डब्लू	01 अप्रैल 2016
हवलदार	गजरे उत्तम बाऊ साहिब	13984589एन	अब	जेसी-701465वाई	01 अप्रैल 2016
हवलदार	दिनेश चन्द्र राय	13984612डब्लू	अब	जेसी-701466एफ	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राज कुमार सिंह	13984616एम	अब	जेसी-701467के	01 अप्रैल 2016
हवलदार	राजेश कुमार	13984621एक्स	अब	जेसी-701468एम	01 अप्रैल 2016
हवलदार	अरूण कुमार मिश्रा	13984620पी	अब	जेसी-701469पी	01 अप्रैल 2016
हवलदार	प्रमोद कुमार	13984655एल	अब	जेसी-701470के	01 अप्रैल 2016
हवलदार	सुभाष चन्द्रा	13984656एन	अब	जेसी-701529वाई	15 अप्रैल 2016 /
/ (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	आशिष कुमार मिश्रा	13984711वाई	अब	जेसी-701557एल	01 मई 2016
हवलदार	सोहन सिंह	13984981एन	अब	जेसी-701558एन	01 मई 2016
हवलदार	उदय वीर	13985080एन	अब	जेसी-701559डब्लू	01 मई 2016
हवलदार	धुरा राम यादव	13985291डब्लू	अब	जेसी-701561एन	01 मई 2016
हवलदार	राजबीर सिंह	13985360एफ	अब	जेसी-701562डब्लू	01 मई 2016
हवलदार	धीरज कुमार सिंह	13985389के	अब	जेसी-701563वाई	01 मई 2016
हवलदार	रविन्द्रा सिंह	13985459एक्स	अब	जेसी-701564एफ	01 मई 2016
हवलदार	बलबीर सिंह	13985622एम	अब	जेसी-701579के	01 जून 2016
हवलदार	सावन्त बाऊ गंगा राम	13985650वाई	अब	जेसी-701580वाई	01 जून 2016
हवलदार	तरानीसैन साहू	13985690ए	अब	जेसी-701581एफ	01 जून 2016
हवलदार	कृष्णा कुमार यादव	13985778के	अब	जेसी-701583एम	01 जून 2016
हवलदार	चरन सिंह	13985907वाई	अब	जेसी-701584पी	01 जून 2016
हवलदार	महेश कुमार मल्लहा	13987110वाई	अब	जेसी-701585एक्स	08 जून 2016 / /
हवलदार	टी सरवान्न	13984944ए	अब	जेसी-701586ए	01 जून 2016
/ / (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	अजीथा कुमार जे	13986277डब्लू	अब	जेसी-701753एल	14 जुलाई 2016 / / /
/ / / (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 23 जून 2015 से दी जायेगी।)					
हवलदार	योगेन्द्रा	13987052ए	अब	जेसी-701645एफ	01 जुलाई 2016
हवलदार	हरी पाल सिंह	13987080एम	अब	जेसी-701646के	01 जुलाई 2016
हवलदार	सुभाष चन्द	13987204डब्लू	अब	जेसी-701647एम	02 जुलाई 2016!

हवलदार	श्यामजीत सिंह	13987145पी	अब	जेसी-701648पी	01 जुलाई 2016
हवलदार	राकेश सिंह	13987148एच	अब	जेसी-701649एक्स	01 जुलाई 2016
हवलदार	एम अरुमुगम	13987450एफ	अब	जेसी-701650एम	01 जुलाई 2016
हवलदार	अलागुथम्बी एल	13987447एफ	अब	जेसी-701651पी	01 जुलाई 2016
हवलदार	तिलक दास	13987462डब्लू	अब	जेसी-701652एक्स	01 जुलाई 2016
हवलदार	उमेश सिंह यादव	13987466एम	अब	जेसी-701653ए	01 जुलाई 2016
हवलदार	अशोक कुमार	13985777एफ	अब	जेसी-701654एच	01 जुलाई 2016
हवलदार	नरसिंह चौहान	13987498पी	अब	जेसी-701655एल	04 जुलाई 2016!
हवलदार	जोगेन्द्र सिंह	13987494वाई	अब	जेसी-701656एन	01 जुलाई 2016
हवलदार	सिद्ध नाथ पाल	13987467पी	अब	जेसी-701657डब्लू	01 जुलाई 2016
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह नठवाट	13987486ए	अब	जेसी-701678एम	01 जुलाई 2016
!(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	शंकर जी सिंह	13987733एच	अब	जेसी-701679पी	01 अगस्त 2016
हवलदार	अजय प्रताप सिंह	13987594के	अब	जेसी-701680के	01 अगस्त 2016
हवलदार	अरधी मधु सूदन राव	13987593एफ	अब	जेसी-701681एम	24 अगस्त 2016!!
हवलदार	मनोरंजन नायक	13987802एन	अब	जेसी-701725वाई	01 अगस्त 2016
हवलदार	रामा चन्द्रा दास	13987801एल	अब	जेसी-701682पी	01 अगस्त 2016
हवलदार	उमेश प्रसाद यादव	13987784डब्लू	अब	जेसी-701683एक्स	01 अगस्त 2016
हवलदार	संजय कुमार	13987785वाई	अब	जेसी-701684ए	01 अगस्त 2016
!! (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायगी)					

ए. के. तिवारी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 43, दिनांक 19 जनवरी 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लै0 कर्नल सिद्धार्थ नियोगी	टीए(एम)-1163	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014 (अप.)
लै0 कर्नल आर के गुप्ता	टीए(एम)-1176	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014 (अप.)

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 44, दिनांक 20 जनवरी 2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री मनोज बाली, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक कम तीव्रता संघर्ष निदेशालय, र. अनु. एवं वि. सं. मुख्यालय 28 फरवरी 2017 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हुए हैं और 01 मार्च 2017 (पूर्वाह्न) से इन्हें पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किया गया है।

राजीव रंजन
अपर निदेशक (कार्मिक / डीआरडीएस-II)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th March 2017

D(MS) SECTION

No. 36, dated 10th January 2017—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Dec 2016:—

Honorary Army ADC

INFANTRY

IC-34605N Lt Gen Rakesh Sharma, UYSM, AVSM, VSM, INF

Vice

IC-34019L Lt Gen DS Hooda, PVSM, UYSM, AVSM, VSM** (Retired), INF

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Jan 2017:—

Honorary Army ADC

INFANTRY

IC-35137L Lt Gen PM Hariz, AVSM, SM, VSM, MECH INF

Vice

IC-34356A Lt Gen NS Ghei, PVSM, AVSM** (Retired), INF

REVATI RAMAN
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 37, dated 11th January 2017—The President is pleased to make the following appointments:—

TERRITORIAL ARMY

ANTE DATE SENIORITY

SS-37815, Ex Major Anurag Singh Chouksey, now TA-42972P Lieutenant Anurag Singh Chouksey has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 24 Mar 2015 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Regulations 1948 (Revised Edition 1976). He is also granted 07 years, 06 months and 11 days (wef 06.03.1999 to 15.09.2006) ante date seniority with effect from 13 Sep 2007 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 24 Mar 2015. Also the officer is promoted with notional seniority in the rank of Captain with effect from 13 Sep 2011 and Major with effect from 13 Sep 2015 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regs 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

TERRITORIAL ARMY

ANTE DATE SENIORITY

SS-39008H, Ex Captain Gaurav Negi, now TA-43001W Lieutenant Gaurav Negi has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 23 Dec 2015 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Regulations 1948 (Revised Edition 1976). He is also granted 14 years (wef 03.03.2001 to 02.03.2015) ante date seniority with effect from 23 Dec 2001 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Major with effect from 23 Dec 2015. Also the officer is promoted with notional seniority in the rank of Captain with effect from 23 Dec 2005 and Major with effect from 23 Dec 2009 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regs 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 2006 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

M. P. SINGH
Under Secy.

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 38, dated 12th January 2017—The President is pleased to make the following promotion:—

ARMY HEADQUARTERS
TO BE CHIEF OF ARMY STAFF

IC No	RANK	NAME	ARM	Date of Sub Rank
IC-35471	GENERAL	BIPIN RAWAT, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC	11 GR	01.01.17

The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
TO BE SUBSTANTIVE GENERAL

IC No	RANK	NAME	ARM	Date of Sub Rank
IC-35471	GENERAL	BIPIN RAWAT, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC	11 GR	01.01.17

SK SHARMA
Dir MS (X)

NATIONAL CADET CORPS

MS(D)

No. 39, dated 13th January 2017—The undermentioned is granted the honorary rank of Commodore-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Air Staff:—

Air Chief Marshal BS Dhanoa, PVSM, AVSM, YSM, VM, ADC 01 Jan 2017

Chief of the Air Staff

IHQ of MoD (Air)

Vayu Bhawan New Delhi – 110011.

AK PANDEY
Brig
Dy Dir Gen (MS)

ARMY BRANCH

No. 40, dated 16 January 2017—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION
TO BE LT COL

Maj Somnath Kundu	TA(M)-1202	(AMC TA)	21 Jan 2014
-------------------	------------	----------	-------------

M. P. SINGH
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 41, dated 17th January 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
DEFENCE SECURITY CORPS
To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar(GD)	PSN Swamy	JC-724446A	01 Oct 2016
-------------	-----------	------------	-------------

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Subedar(GD)	Shyam Narain Singh	JC-843061M	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	Charan Singh	JC-843068W	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	T Ashok Kumar	JC-843069Y	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	A Bhaskaran	JC-843070N	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	Varghese PA	JC-843074K	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	KT Narayanan Kutty	JC-843076P	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	Devan C	JC-843077X	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	G Venugopalan	JC-843078A	01 Oct 2016
Nb Subedar(GD)	Prem Nath Singh	JC-829195A	02 Nov 2016
Nb Subedar(GD)	Arjun Bahadur Thapa	JC-607473Y	01 Nov 2016
Nb Subedar(GD)	Jagdish Chand	JC-519708X	01 Nov 2016
Nb Subedar(GD)	Kashmir Singh	JC-499192W	01 Dec 2016
Nb Subedar(GD)	Prem Singh	JC-419716F	01 Dec 2016
Nb Subedar(GD)	Shyam Lal	JC-810551A	01 Dec 2016

To be Substantive Subedar Clk (SD)

Nb Subedar Clk (SD)	Nilmani Sinha	JC-843138-K	01 Dec 2016
Nb Subedar Clk (SD)	Ram Kishore	JC-843141K	01 Dec 2016

R. P. S. NEGI
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 42, dated 18th January 2017—The President is pleased to make the following promotions:—

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (CLK SD)

NAIB SUBEDAR	ARJUN SINGH	JC699855A	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	SUBHAS MONDAL	JC699943W	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	YOGRAM BAWNE	JC699944Y	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	NARAYAN PANIGRAHY	JC699945F	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	ASHWINI KUMAR DAS	JC699946K	02 May 2016*
NAIB SUBEDAR	SHIV PAL SINGH PAL	JC699902M	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	SURESH KUMAR SHARMA	JC699990N	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	JADHAV DILEEP VILAS RAO	JC699991W	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	BALTE NAMDEO NARAYAN	JC700046P	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	AMBRE SANJAY HARISH CHANDRA	JC699992Y	02 Jun 2016*
NAIB SUBEDAR	GHEWARI RAMCHANDRA GANPATI	JC699993F	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	PADULKAR GULAB DNAYNU	JC699994K	02 May 2016*
*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	BHOSALE ASHOK RAMU	JC699995M	08 Jun 2016**

NAIB SUBEDAR	MAHAMUNI PRASAD KASHI NATH	JC699996P	01 Jun 2016
NAIB SUBEDAR	ARAGE LAXMAN APPASO	JC699997X	14 Jun 2016**
NAIB SUBEDAR	GAVALI DATTATRAY JALINDAR	JC699998A	06 Jun 2016**
NAIB SUBEDAR	CHOUGULE SHIVAJI KERU	JC699999H	07 Jun 2016**
NAIB SUBEDAR	YADAV MANIK DNYANOBA	JC700058K	08 Jun 2016**
NAIB SUBEDAR	TALEKAR DNYANESHWAR YASHAWANT	JC700059M	07 Jun 2016**
NAIB SUBEDAR	BARKADE VITTHAL NANA	JC700060F	01 Jun 2016
NAIB SUBEDAR	DHENDE ARJUN NIVRUTTI	JC700061K	27 Jul 2016**
NAIB SUBEDAR	RAMESH PAL	JC700062M	04 Jun 2016**
NAIB SUBEDAR	PRAMOD KUMAR SHARMA	JC700063P	20 Jun 2016**
**(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	VINAY KUMAR	JC700064X	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	D RAVI KUMAR	JC700065A	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	SUNDER LAL	JC700066H	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	RAJBIR SINGH	JC700252Y	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	AKHILESH CHANDRA DUBEY	JC700253F	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	DEWARI LAL	JC700254K	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	SATBIR SINGH	JC700533P	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	RAM NATH SINGH YADAV	JC700267F	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	DILBAG SINGH	JC700268K	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	KADAM RAJENDRA ANNA	JC700269M	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	KUMBHAR KRISHNAT GANAPATI	JC700270F	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	ARUN KUMAR	JC700271K	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	SHRI KRISHNA VERMA	JC700272M	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	HARI OM	JC700274X	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	HARTAJ SINGH	JC700333Y	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	SUBE SINGH YADAV	JC700334F	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	NATHUNI YADAV	JC700335K	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA KUMAR	JC700336M	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR KHUNTIA	JC700337P	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	ANIRUDDH YADAW	JC700338X	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	HARI SHANKAR	JC700339A	20 Aug 2016***
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR MAHARANA	JC700340P	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	SATYABRATA SAMANTA	JC700341X	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	SWAPAN KUMAR DAS	JC700342A	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	SUSIL KUMAR MANNA	JC700343H	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	PARAMJIT SINGH	JC700344L	01 Aug 2016

NAIB SUBEDAR	NABODH KUMAR JHA	JC700345N	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	BISWAJIT MUKHERJEE	JC700346W	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	SURJYA NARAYAN CHOUDHURY	JC700347Y	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	TRIBHUWAN CHANDRA PATHAK	JC700348F	01 Aug 2016
*** (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)			

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (SKT)

NAIB SUBEDAR	SUMIT BHOWMIK	JC699742X	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	DEVKATE YUVARAJ TRIMBAK RAO	JC699743A	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	BRAJENDRA SINGH	JC699744H	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	VAIDYA SANJAY KUMAR	JC699745L	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	YADAV YATENDRA SINGH RAMESHAWAR D	JC699746N	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA PRASAD JADLY	JC699748Y	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	SOUMITRA KUMAR DAS	JC699749F	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	ANIL NP	JC699750W	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	DEVENDRA NATH DIXIT	JC699836P	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	JAY SINGH	JC699837X	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	PRAVEEN KUMAR SHARMA	JC699838A	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	AJAY PANWAR	JC699840X	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	VIJAY SINGH	JC699841A	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	GIRISH BABU C	JC699842H	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	SUSHEEL KUMAR	JC699843L	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	RAM BALAK DAS	JC699845W	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR SHARMA	JC699950M	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR SINGH	JC699951P	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA MISHRA	JC700154Y	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	BISWAJIT PARIA	JC700033X	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	RAVINDER RANA	JC700034A	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	SATISH SINGH	JC700035H	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	SUKHVEER SINGH	JC700036L	25 Jun 2016*
NAIB SUBEDAR	BHAGWATI PRASAD	JC700037N	30 Jul 2016*
NAIB SUBEDAR	CHANDAN SINGH	JC700010W	17 Jun 2016*
NAIB SUBEDAR	DALJIT SINGH	JC700011Y	09 Jun 2016*
NAIB SUBEDAR	RABINDRA SAHU	JC700012F	14 Jun 2016*
NAIB SUBEDAR	BHUWAN CHANDRA PANT	JC700048A	11 Jul 2016*
* (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	PRADEEPAN PAMBALLY	JC700151L	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	DIPAK DAS	JC700013K	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	HARENDRA SINGH RAWAT	JC700014M	07 Jul 2016**
NAIB SUBEDAR	SINGH JAYRAJ HEERA	JC700015P	01 Jul 2016

NAIB SUBEDAR	VASANTHAN K S	JC700217W	14 Jul 2016**
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR J	JC700016X	18 Jul 2016**
NAIB SUBEDAR	JEEVAN KUMAR	JC700134L	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	BALBIR SINGH	JC700135N	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	ALEXANDER GEORGE	JC700049H	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	NIRANJAN KUMAR	JC700136W	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	PAWAN KUMAR	JC700017A	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	SURENDRA NATH	JC700018H	22 Jul 2016**
NAIB SUBEDAR	AVADHESH	JC700019L	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	BHUPENDRA SINGH KHARAYAT	JC700020A	01 Jul 2016
**(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	KANTI PRASAD	JC700021H	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	DALVEER SINGH RAWAT	JC700155F	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	TAPAS MANDAL	JC700304K	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC700255M	13 Aug 2016***
NAIB SUBEDAR	ARVIND KUMAR SINGH	JC700256P	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	DINESH KUMAR SHARMA	JC700257X	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	RANJAN KUMAR DEY	JC700258A	01 Aug 2016
*** (Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)			

TO BE NAIB SUBEDAR (PTA)					
HAVILDAR	ANEESH VK	13987716H	NOW	JC701133P	01 Nov 2015
HAVILDAR	SELVAM S	13987968P	NOW	JC701281A	01 Dec 2015
HAVILDAR	C SUDASH	13987964Y	NOW	JC701266L	01 Dec 2015
HAVILDAR	NALLA DHANUNJAYUDU	13988091L	NOW	JC701267N	01 Dec 2015
HAVILDAR	PALANI SAMY J	13988072A	NOW	JC701303N	01 Jan 2016
HAVILDAR	OM PRAKASH DWIVEDI	13988165P	NOW	JC701294X	01 Jan 2016
HAVILDAR	MOIRANGTHEM KHOMDON MEETEI	13988344P	NOW	JC701309P	01 Jan 2016
HAVILDAR	PRABHAT KUMAR TRIPATHI	13988464N	NOW	JC701295A	01 Jan 2016
HAVILDAR	SANJAY KUMAR	13988751X	NOW	JC701300A	01 Jan 2016
HAVILDAR	GORE ANILKUMAR GAJENDRA	13989114N	NOW	JC701316L	01 Jan 2016
HAVILDAR	KARICHETI SRIDHAR	13989388Y	NOW	JC701317N	01 Feb 2016
HAVILDAR	GURRAM HARI NATH	13989424Y	NOW	JC701432N	01 Apr 2016
HAVILDAR	KUMAR D	13989532H	NOW	JC701433W	01 Apr 2016
HAVILDAR	AJIT SINGH YADAV	13989685M	NOW	JC701434Y	01 Apr 2016
HAVILDAR	PRAVANJAN BISWAL	13989757L	NOW	JC701435F	01 Apr 2016

HAVILDAR	VINAY KUMAR VERMA	13989767P	NOW	JC701436K	01 Apr 2016
TO BE NAIB SUBEDAR (BTA)					
HAVILDAR	SYAM R	13980398F	NOW	JC700755K	01 Mar 2015
HAVILDAR	KANDASAMY N	13986905A	NOW	JC700756M	01 Mar 2015
HAVILDAR	PATIL AMARDIP SHAM RAO	13986985H	NOW	JC700789X	01 May 2015
HAVILDAR	ARAVIND KUMAR YADAV	13987055N	NOW	JC700906X	15 May 2015#
#Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PRIT SINGH	13987081P	NOW	JC700929Y	01 Jul 2015
HAVILDAR	JAGAT SINGH GOBARI	13987628M	NOW	JC701003M	01 Aug 2015
HAVILDAR	PADMA RAM JUNAWA	13987669W	NOW	JC701071A	01 Sep 2015
HAVILDAR	BHAIRAB DATT JOSHI	13987728X	NOW	JC701146M	09 Oct 2015##
##Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	RAKESH KUMAR	13988006X	NOW	JC701231P	01 Dec 2015
HAVILDAR	SURENDER SINGH DANU	13988129K	NOW	JC701575N	01 Jun 2016
TO BE NAIB SUBEDAR (STA)					
HAVILDAR	JADHAV BHAU SAHEB KARABHARI	13985386W	NOW	JC701429N	01 Mar 2016###
HAVILDAR	MAHENDRA KULHARI	13985729F	NOW	JC701155N	17 Nov 2015###
HAVILDAR	KP SAJU	13986480M	NOW	JC701156W	01 Nov 2015
###Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	JADHAV NAND KUMAR RAMDAS	13985275Y	NOW	JC701228P	01 Dec 2015\$
\$Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 28 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	C DURAI BABU	13986948P	NOW	JC701296H	01 Jan 2016\$\$
HAVILDAR	BRIJ KISHOR PAL	13987975L	NOW	JC701229X	01 Dec 2015
\$\$Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SEKAR R	13989528A	NOW	JC701445L	01 Apr 2016
HAVILDAR	THANG SIAN MANG	13990090F	NOW	JC701446N	01 Apr 2016
HAVILDAR	DILIP KUMAR	13991595K	NOW	JC701447W	01 Apr 2016
HAVILDAR	JITENDRA SINGH DEOL	13991812P	NOW	JC701448Y	01 Apr 2016
HAVILDAR	BELAVALEKAR MARUTI BAJI RAO	13991912A	NOW	JC701449F	01 Apr 2016
HAVILDAR	SUDHIR KUMAR	13993009P	NOW	JC701530N	01 Apr 2016
TO BE NAIB SUBEDAR (DENTAL HYGIENIST)					
HAVILDAR	PATIL RAVINDRA VITHAL	13990844L	NOW	JC701431L	01 Mar 2016
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 14 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SUKAMAL DEBNATH	13994123Y	NOW	JC701140L	20 Oct 2015*

HAVILDAR	NARINDER SINGH	13994066H	NOW	JC701082M	01 Sep 2015
*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	ARYABRAT DAS	13993934X	NOW	JC701213M	12 Nov 2015@
@Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Sep 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	EZHUMALAI A	13994249Y	NOW	JC700645P	10 Nov 2015@@
HAVILDAR	GAJAVELLI NARSIMHARAMULU	13994429F	NOW	JC701179X	20 Oct 2015@@
@@Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	ELANGBAM MOHENDRO SINGH	13994470X	NOW	JC701269Y	01 Dec 2015@@@
HAVILDAR	MOHIBUR RAHMAN	13994654W	NOW	JC701230M	01 Dec 2015
@@@Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	TARUN KUMAR	13994510N	NOW	JC701312P	01 Feb 2016
HAVILDAR	AJAY KUMAR THAKUR	13994533P	NOW	JC701313X	01 Feb 2016
HAVILDAR	MAHADIK PRAKASH MARUTI	13994936P	NOW	JC701314A	01 Feb 2016
HAVILDAR	RAJ BINDER SINGH	13994955A	NOW	JC701515Y	01 Apr 2016
HAVILDAR	RAKESH KUMAR BRALE	13995253N	NOW	JC701516F	01 Apr 2016
HAVILDAR	VINOD SINGH RATHORE	13995265H	NOW	JC701517K	01 Apr 2016
HAVILDAR	G KAMAL BABU	13995360P	NOW	JC701601K	01 Jun 2016
HAVILDAR	SATYENDRA JAISWAL	13995393A	NOW	JC701602M	01 Jun 2016

TO BE NAIB SUBEDAR (DORA)

HAVILDAR	DINESH KUMAR SINGH	13995719L	NOW	JC701184H	07 Nov 2015
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 14 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	TARSEM SINGH	13996092H	NOW	JC701183A	10 Nov 2015#
HAVILDAR	JADHAV PRASHANT LAXMAN RAO	13996242N	NOW	JC701211F	16 Nov 2015#
HAVILDAR	MANIRAM JAKHAR	13996338W	NOW	JC701198H	12 Nov 2015#
HAVILDAR	RAMESH N SAVANT	13996431X	NOW	JC701195P	01 Nov 2015
#Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PRADEEP KUMAR SHARMA	13996426M	NOW	JC701234H	01 Dec 2015
HAVILDAR	R DHAMOTHARAN	13996492P	NOW	JC701406M	01 Mar 2016##
HAVILDAR	SHAIK KHAJA HUSSEN	13996446A	NOW	JC701235L	01 Dec 2015
HAVILDAR	RAKESH KUMAR SHARMA	13996379A	NOW	JC701574L	01 Jun 2016##
HAVILDAR	MANOJ KUMAR	13996376M	NOW	JC701279H	01 Dec 2015
HAVILDAR	ARUN KUMAR OJHA	13996418N	NOW	JC701236N	01 Dec 2015
HAVILDAR	PRABAKARAN R	13996559H	NOW	JC701306F	27 Feb 2016##

HAVILDAR	LINGARAJU CHANDRA GIRI	13996517W	NOW	JC701280X	01 Dec 2015
HAVILDAR	SANJAY MAHTO	13996480A	NOW	JC701440M	01 Apr 2016##
HAVILDAR	UDAI PRATAP	13996675L	NOW	JC701237W	01 Dec 2015
##Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	S ALAGU	13996856W	NOW	JC701308M	01 Jan 2016
HAVILDAR	TARAPATHI NAIDU D	13996445X	NOW	JC701297L	01 Jan 2016
HAVILDAR	MANOJ GEORGE	13996908F	NOW	JC701232X	01 Jan 2016
HAVILDAR	DEVENDRAYYA MATHAPATI	13996977X	NOW	JC701233A	01 Jan 2016
HAVILDAR	NARENDRA SINGH SHEKHAWAT	13997176H	NOW	JC701321W	16 Jan 2016###
###Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	RAJESH BISWAS	13997259N	NOW	JC701322Y	01 Feb 2016
HAVILDAR	AJIT KUMAR TIWARI	13998568H	NOW	JC701323F	01 Feb 2016
HAVILDAR	MUKESH KUMAR TETARWAL	13998798W	NOW	JC701324K	01 Feb 2016
HAVILDAR	MANOJ KUMAR SHARMA	13998901W	NOW	JC701667A	15 Jun 2016*
*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 16 without effect on pay & allces					

TO BE NAIB SUBEDAR (HEALTH ASSISTANT)

HAVILDAR	SURESH KUMAR	13988258K	NOW	JC701577Y	01 Jun 2016
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	RAJENDRA YADAV	13988247X	NOW	JC701099A	01 Nov 2015*
HAVILDAR	GOBIN CH BORAH	13988382L	NOW	JC701578F	01 Jun 2016*
*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SUNIL KUMAR G	13988531N	NOW	JC701001F	01 Aug 2015
HAVILDAR	Y V KRISHNA RAO	13988520F	NOW	JC701002K	01 Aug 2015
HAVILDAR	JITENDRA SINGH SENGAR	13988567M	NOW	JC701092W	01 Sep 2015
HAVILDAR	PREM CHANDRA	13988555X	NOW	JC701093Y	14 Sep 2015**
**Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	KAILASH SINGH YADAV	13988550Y	NOW	JC701142W	05 Oct 2015***
HAVILDAR	PRAMOD SINGH KANYAL	13988584M	NOW	JC701143Y	08 Oct 2015***
HAVILDAR	SUDHIR KUMAR	13988552K	NOW	JC701144F	07 Oct 2015***
HAVILDAR	VINOD KUMAR	13988720X	NOW	JC701180M	17 Oct 2015***
HAVILDAR	RAM SINGH	13987239M	NOW	JC701145K	16 Oct 2015***
HAVILDAR	RAJESH KUMAR	13988704A	NOW	JC701100K	01 Oct 2015
***Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	UMESH KUMAR CHOUDHREE	13988670X	NOW	JC701263X	03 Nov 2015#

HAVILDAR	SUMER	13988661W	NOW	JC701132M	02 Nov 2015#
HAVILDAR	BADRI NATH SINGH	13988671A	NOW	JC701194M	10 Nov 2015#
#Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	ASHIS KUMAR ROY	13988748X	NOW	JC701272Y	01 Dec 2015
HAVILDAR	PAWAR ASHOK SHRIRANG	13988810Y	NOW	JC701273F	01 Dec 2015
HAVILDAR	MAKKHAN LAL GUPTA	13988923F	NOW	JC701270N	07 Jan 2016##
##Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 16 without effect on pay & allces					

TO BE NAIB SUBEDAR (LAB ASST)

HAVILDAR	VENKADESAN K	13987319K	NOW	JC701416W	01 Mar 2016*
HAVILDAR	SARAVANAN B	13987322K	NOW	JC701417Y	01 Mar 2016*
*Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Apr 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	RAM PRASAD	13987615P	NOW	JC701418F	02 Mar 2016**
HAVILDAR	NAGESWARA RAO NEELAPU	13987770W	NOW	JC701419K	01 Mar 2016**
HAVILDAR	RAMESH KUMAR JAMWAL	13987781H	NOW	JC701532Y	08 Apr 2016**
HAVILDAR	BRIJ BHOOSHAN	13988033F	NOW	JC701533F	01 Apr 2016**
HAVILDAR	PALWINDER SINGH	13988053P	NOW	JC701534K	01 Apr 2016**
**Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Jul 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	P MAHESH KUMAR	13988191W	NOW	JC701535M	01 Apr 2016
Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Sep 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PRADEEP KUMAR SEN	13990788X	NOW	JC701536P	01 Apr 2016
HAVILDAR	PITTA PRASANTH REDDI	13991418K	NOW	JC701537X	10 Apr 2016***
HAVILDAR	GVS B RAO GULLIPALLI	13991419M	NOW	JC701538A	01 Apr 2016
HAVILDAR	VIJAYA SURESH P	13991465F	NOW	JC701539H	01 Apr 2016
HAVILDAR	SIVANAGA RAJU KASIRAJU	13991663M	NOW	JC701540X	01 Apr 2016
HAVILDAR	MOHAN CHANDRA JOSHI	13991748H	NOW	JC701541A	01 Apr 2016
***Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Apr 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	BALARAMA G	13991829H	NOW	JC701607L	01 Jun 2016
HAVILDAR	P SANTOSH KUMAR	13991826P	NOW	JC701608N	01 Jun 2016
HAVILDAR	JAGDEEP KUMAR	13992097K	NOW	JC701609W	01 Jun 2016
HAVILDAR	SWAPAN KUMAR DAS	13992231K	NOW	JC701631F	20 Jun 2016@
@Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Jun 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	G SREEDHAR REDDY	13992486K	NOW	JC701632K	01 Jul 2016
HAVILDAR	BIBEKA PRASAD SINGH	13992654X	NOW	JC701633M	01 Jul 2016
HAVILDAR	MURALEE KRISHNAN SP	13992818H	NOW	JC701634P	01 Jul 2016
HAVILDAR	PRAVENDRA KUMAR RATHI	13993004W	NOW	JC701635X	01 Jul 2016

HAVILDAR	DEBASIS PAL	13993123M	NOW	JC701636A	01 Jul 2016
HAVILDAR	SRIMANTA BAG	13993127H	NOW	JC701637H	01 Jul 2016
HAVILDAR	LAXMAN SINGH MEHTA	13992018K	NOW	JC701639N	01 Aug 2016

TO BE NAIB SUBEDAR (ORA)

HAVILDAR	MRITUNJAY SINGH	13987122N	NOW	JC701409A	01 Mar 2016*
*Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Apr 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	GOVIND SINGH KARKI	13987388A	NOW	JC701450W	13 Apr 2016**
**Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 May 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PRABHU LAL RATHORE	13987474L	NOW	JC701004P	21 Sep 2015***
HAVILDAR	K PATTABHI RAMA RAO	13987769F	NOW	JC701005X	01 Aug 2015
***Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Aug 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	BHUPAL SINGH	13987730P	NOW	JC701087L	01 Sep 2015
HAVILDAR	CHHATAR PAL	13987658K	NOW	JC701088N	01 Sep 2015
HAVILDAR	RAJENDRA PRASAD MISHRA	13987676M	NOW	JC701089W	01 Sep 2015
HAVILDAR	BALVIR SINGH	13987592Y	NOW	JC701090L	01 Sep 2015
HAVILDAR	SURESH KUMAR CHAUHAN	13987782L	NOW	JC701091N	01 Sep 2015
HAVILDAR	CHAIN SINGH RATHORE	13987720L	NOW	JC701167H	02 Nov 2015#
HAVILDAR	SHAILENDRA KUMAR SUMAN	13987825P	NOW	JC701136H	10 Oct 2015#
HAVILDAR	SANJAY KUMAR THAPA	13987852Y	NOW	JC701318W	23 Oct 2015#
HAVILDAR	VIJAYA KUMAR R	13987965F	NOW	JC701301H	11 Dec 2015#
HAVILDAR	JITENDRA SINGH	13988023X	NOW	JC701134X	17 Oct 2015#
HAVILDAR	HARISH CHANDRA	13988031W	NOW	JC701135A	16 Oct 2015#
#Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	BAL KRISHNA MISHRA	13988039H	NOW	JC701168L	02 Nov 2015##
HAVILDAR	MANOJ KUMAR	13988019P	NOW	JC701169N	01 Nov 2015
HAVILDAR	MURARI LAL YADAV	13988161Y	NOW	JC701305Y	01 Nov 2015
HAVILDAR	SURENDRA KURUP V	13989803P	NOW	JC701170H	01 Nov 2015
HAVILDAR	KAMAL KUMAR	13990212A	NOW	JC701171L	01 Nov 2015
##Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	GAVAS PRAKAS NEMAJI	13990458Y	NOW	JC701250A	01 Dec 2015
HAVILDAR	NIRMAL KUMAR LOHUMI	13987729A	NOW	JC701251H	01 Dec 2015
HAVILDAR	RAMVIR SINGH	13990614X	NOW	JC701299W	07 Dec 2015###
HAVILDAR	SATISH KUMAR M	13990709X	NOW	JC701252L	01 Dec 2015
###Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	DINESH CHANDRA	13990663A	NOW	JC701292M	01 Jan 2016

HAVILDAR	SUBHASH REDDY P	13990698W	NOW	JC701293P	01 Jan 2016
HAVILDAR	SANKAR P	13990785K	NOW	JC701325M	01 Feb 2016
HAVILDAR	CHARANJEET SINGH	13986579H	NOW	JC701400L	01 Feb 2016
HAVILDAR	DEEPAK KUMAR TRIPATHI	13988041A	NOW	JC701354F	01 Feb 2016
HAVILDAR	B RAMAN JANEYA REDDY	13991221N	NOW	JC701326P	01 Feb 2016
HAVILDAR	MANGAL JIT SINGH	13991403F	NOW	JC701327X	01 Feb 2016
HAVILDAR	KUPENDI RANT	13991460H	NOW	JC701328A	01 Feb 2016
HAVILDAR	P KUBENDRAN	13991650P	NOW	JC701329H	01 Feb 2016
HAVILDAR	GULBAHAR SINGH	13991567X	NOW	JC701330X	01 Feb 2016
HAVILDAR	RAVI SHEKAR	13991800A	NOW	JC701331A	01 Feb 2016
HAVILDAR	GURUPADA ROY	13991726K	NOW	JC701332H	01 Feb 2016
HAVILDAR	CHAUDHARI SANTOSH MALHARI	13991753N	NOW	JC701410P	01 Mar 2016
HAVILDAR	ANIL KUMAR	13991728P	NOW	JC701411X	01 Mar 2016
HAVILDAR	RAMESH BABU B	13991833L	NOW	JC701412A	01 Mar 2016
HAVILDAR	SAYYAD ABDUL AHMAD	13991914L	NOW	JC701451Y	01 Apr 2016
HAVILDAR	DIWAKAR SINGH	13990123F	NOW	JC701452F	01 Apr 2016
HAVILDAR	KOTANGALE HUSEN DHANRAJ	13991994N	NOW	JC701521M	01 Apr 2016
HAVILDAR	SAKURERAVASAHEB MADHAV	13992026H	NOW	JC701453K	01 Apr 2016
HAVILDAR	RAJESH N	13992194F	NOW	JC701454M	01 Apr 2016
HAVILDAR	V KARTHIGAIVANAN	13992184X	NOW	JC701455P	01 Apr 2016
HAVILDAR	KRISHAN KUMAR	13992069X	NOW	JC701456X	12 Apr 2016\$\$
HAVILDAR	SHRADHAKAR SAHU	13992280M	NOW	JC701457A	01 Apr 2016
HAVILDAR	NARESH KUMAR	13992604M	NOW	JC701553P	01 Apr 2016
HAVILDAR	DINESH VP	13992847X	NOW	JC701458H	01 Apr 2016
HAVILDAR	BHOSALE ROHIDAS AMBADAS	13992864X	NOW	JC701459L	01 Apr 2016
HAVILDAR	KRISHNA BHUSHAN	13992879A	NOW	JC701460A	01 Apr 2016
HAVILDAR	UMESH PAL SINGH	13992894P	NOW	JC701461H	01 Apr 2016
HAVILDAR	SHILENDRA KUMAR OJHA	13992997N	NOW	JC701554X	01 Apr 2016
\$\$Granted seniority in the rank of Nb Subedar wef 01 Apr 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	RAJIB GUPTA	13993125X	NOW	JC701603P	01 Jun 2016
HAVILDAR	MD HUMAYUN HOSSAIN	13993255A	NOW	JC701604X	01 Jun 2016
HAVILDAR	ASHOK KUMAR	13993395M	NOW	JC701605A	01 Jun 2016

TO BE NAIB SUBEDAR (PHARM)

HAVILDAR	JOYDEV BERA	13994785F	NOW	JC701214P	12 Nov 2015
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PANKAJ SALARIA	13995114K	NOW	JC701426A	15 Mar 2016
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	MANOJ KUMAR JOSHI	13995554X	NOW	JC701427H	04 Mar 2016*
HAVILDAR	MOHD ASLAM KHAN	13995550F	NOW	JC701164P	17 Nov 2015*
*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	GURMEET SINGH	13996017Y	NOW	JC701565K	16 Apr 2016**
HAVILDAR	SURAJ KARMAKAR	13996152M	NOW	JC701522P	04 Apr 2016**
HAVILDAR	DILIP KUMAR PANDEY	13992398N	NOW	JC701282H	07 Dec 2015**
HAVILDAR	RAMAR K	13997476K	NOW	JC701566M	02 May 2016**
**Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 May 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PATIL RAJENDRA SHIVAJI	13996244Y	NOW	JC701165X	01 Nov 2015
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Sep 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	HARI MOHAN	13997713H	NOW	JC701166A	01 Nov 2015
HAVILDAR	TEK CHANDRA TYAGI	13997715N	NOW	JC701298N	08 Dec 2015***
HAVILDAR	MANOJ KUMAR UPADHYAY	13997717Y	NOW	JC701283L	03 Dec 2015***
***Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	AMITABH SINGH	13997738P	NOW	JC701224Y	01 Dec 2015
HAVILDAR	DUBE LAL SAHU	13998606N	NOW	JC701225F	01 Dec 2015
HAVILDAR	BHASKAR DAS	13998613K	NOW	JC701253N	01 Dec 2015
HAVILDAR	ROHIT KUMAR SAHU	13998607W	NOW	JC701254W	01 Dec 2015
HAVILDAR	RAJAN SINGH	13998681X	NOW	JC701226K	01 Dec 2015
HAVILDAR	NARENDRA SINGH	13998739K	NOW	JC701227M	01 Dec 2015
HAVILDAR	SATENDRA SINGH ASWAL	13998764H	NOW	JC701310K	11 Feb 2016#
HAVILDAR	PAWAR SURESH TULASHIDAS	13998777A	NOW	JC701355K	01 Feb 2016
HAVILDAR	ROHITASAV KUMAR LIGREE	13998859H	NOW	JC701311M	01 Feb 2016
#Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	NARENDRA KUMAR TYAGI	13997716W	NOW	JC701428L	01 Mar 2016
HAVILDAR	DHUNKAL RAM	13998456H	NOW	JC701523X	01 Apr 2016
HAVILDAR	AJAY KUMAR SINGH	13998489N	NOW	JC701524A	01 Apr 2016
HAVILDAR	DHIRENDRA KUMAR	13998538L	NOW	JC701525H	01 Apr 2016
HAVILDAR	GAURI NATH	13998630K	NOW	JC701567P	01 Jun 2016
HAVILDAR	BABULAL KHARRA	13998755F	NOW	JC701618X	01 Jun 2016

HAVILDAR	ANIL KUMAR YADAV	13998762X	NOW	JC701569A	02 Jun 2016##
##Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 16 without effect on pay & allces					

TO BE NAIB SUBEDAR (PNA)

HAVILDAR	SANJAY SARKAR	13984427H	NOW	JC701271W	04 Jan 2016
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	TARA SINGH WARTI	13984942P	NOW	JC701352W	01 Feb 2016
HAVILDAR	SURYWANSHI BHAUSAHEB GYANADEO	13985276F	NOW	JC701353Y	01 Mar 2016
HAVILDAR	RAJINDER MALIK	13984311M	NOW	JC701528W	01/04/2016
HAVILDAR	PUSHKAR SINGH DHAMI	13985880M	NOW	JC701438P	01/04/2016
HAVILDAR	MAHENDRA SINGH PANWAR	13986750W	NOW	JC701439X	01/05/2016

TO BE NAIB SUBEDAR (DENT TECH)

HAVILDAR	BIMAN SANTRA	15414458P	NOW	JC701154L	02 Nov 2015^
^Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SONKUSALE MANOJ SHAMRAOJI	15414812Y	NOW	JC701268W	01 Dec 2015
HAVILDAR	SAJEEVAN VELIYAT	15415233Y	NOW	JC701239F	01 Dec 2015
HAVILDAR	SUNIL	15415619Y	NOW	JC701437M	01 Apr 2016^^
HAVILDAR	NARENDRA KUMAR SINGH	15416124Y	NOW	JC701238Y	02 Dec 2015^^
HAVILDAR	ARUN NATH MP	15418484N	NOW	JC701240W	01 Dec 2015
HAVILDAR	B ANANTHAN	15418717K	NOW	JC701241Y	01 Dec 2015
HAVILDAR	DUBEY RAJ KUMAR SUBHASH	15418951A	NOW	JC701242F	01 Dec 2015
^^Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	HARENDRA GIRI	15418993M	NOW	JC701407P	01 Mar 2016
HAVILDAR	BHARAT	15419098N	NOW	JC701408X	01 Mar 2016
HAVILDAR	JIYAYUDDIN ANSARI	15420682X	NOW	JC701542H	01 Apr 2016
HAVILDAR	DEVI DASS SHARMA	15420922K	NOW	JC701597M	01 Jun 2016

TO BE NAIB SUBEDAR (XRA)

HAVILDAR	SANJAY KUMAR YADAV	15419009K	NOW	JC701141N	05 Oct 2015
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	HANUMAN RAM BISHNOI	15420063K	NOW	JC701423M	15 Mar 2016*
HAVILDAR	NARENDRA SINGH	15420137N	NOW	JC701178P	29 Oct 2015*
*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	BOMBESHWAR SONAWAL	15420237Y	NOW	JC701153H	31 Oct 2015
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 15 without effect on pay & allces					

HAVILDAR	ARUN S	15420267W	NOW	JC701320N	12 Nov 2015
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	ROHIT KUMAR	15420284W	NOW	JC701526L	07 Apr 2016**
HAVILDAR	MAHESH KUMAR RUDRAPPA VANNUR	15420331H	NOW	JC701152A	31 Oct 2015**
**Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SHISHPAL KANKAR	15420473A	NOW	JC701196X	01 Nov 2015
HAVILDAR	ANIL KUMAR GOND	15420504P	NOW	JC701285W	05 Dec 2015***
HAVILDAR	SUJITH KUMAR MJ	15420527W	NOW	JC701275M	01 Dec 2015***
***Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PRAKASH KURCHETI	15420553X	NOW	JC701276P	01 Dec 2015
HAVILDAR	YUGAL BHUSHAN	15420573L	NOW	JC701256F	01 Dec 2015
HAVILDAR	BHUPENDRA SINGH	15420581K	NOW	JC701277X	01 Dec 2015
HAVILDAR	HABIBUL HOQUE	15419017H	NOW	JC701420Y	01 Feb 2016@
HAVILDAR	RAVINDRA KUMAR TRIPATHI	15419143P	NOW	JC701257K	01 Dec 2015
HAVILDAR	RAJ SHEKHAR SINGH	15419288A	NOW	JC701258M	01 Dec 2015
HAVILDAR	BHUPENDRA SINGH	15419789A	NOW	JC701259P	01 Dec 2015
@Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	JAGTAP SANTOSH RAMBHAU	15420408A	NOW	JC701284N	01 Jan 2016
HAVILDAR	PARTHA NANDI	15420520M	NOW	JC701421F	08 Feb 2016@@
HAVILDAR	NYJU B	15420609Y	NOW	JC701543L	26 Mar 2016@@
HAVILDAR	GOLHE RAJESH PRABHAKAR	15420610N	NOW	JC701556H	06 Apr 2016@@
HAVILDAR	ROHIT KAMAL	15420757K	NOW	JC701422K	01 Feb 2016
@@Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SHASHI KUMAR	15420776P	NOW	JC701531W	05 May 2016@@@
HAVILDAR	KAD SANDIP JALINDAR	15420944H	NOW	JC701424P	01 Mar 2016
HAVILDAR	LOKESH KUMAR SHARMA	15420999M	NOW	JC701425X	01 Mar 2016
@@@Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	PRAMOD KUMAR TRIPATH	15421126N	NOW	JC701598P	19 May 2016
Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 16 without effect on pay & allces					
HAVILDAR	SIRAJ YADAV	15421416L	NOW	JC701743F	06 Jul 2016#
HAVILDAR	AWATADE SAMADHAN HANMANT	15421440F	NOW	JC701599X	06 Jun 2016#
HAVILDAR	MORE CHETAN RAOSAHEB	15421446H	NOW	JC701600F	01 Jun 2016
HAVILDAR	NIKAM GANESH MUGUTRAO	15421449W	NOW	JC701619A	06 Jun 2016#
#Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 16 without effect on pay & allces					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (CLK SD)

HAVILDAR	KHANDAKER NURUL AMIN	13979370P	NOW	JC701669L	18 Jun 2016*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	BALKARAN SINGH	13989175L	NOW	JC701392X	01 Mar 2016
HAVILDAR	MURALEEDHARAN CM	13989317X	NOW	JC701393A	01 Mar 2016
HAVILDAR	JODH RAJ NAGAR	13989533L	NOW	JC701394H	01 Mar 2016
HAVILDAR	RAMESH CHANDRA PAL	13989599F	NOW	JC701395L	01 Mar 2016
HAVILDAR	PRADEEP KUMAR CHAUHAN	13989596N	NOW	JC701396N	01 Mar 2016
HAVILDAR	KAMLESH KUMAR MISHRA	13989592X	NOW	JC701397W	01 Mar 2016
HAVILDAR	BALDEV RAJ	13989602W	NOW	JC701398Y	01 Mar 2016
HAVILDAR	RAJESH KUMAR VERMA	13989586K	NOW	JC701443A	01 Apr 2016
HAVILDAR	SARAVAR HUSAIN	13989555K	NOW	JC701442X	01 Apr 2016
HAVILDAR	LALAN KUMAR	13989554F	NOW	JC701441P	01 Apr 2016
HAVILDAR	RAVINDER SINGH	13989601N	NOW	JC701444H	01 Apr 2016
HAVILDAR	RAJESH PAL	13989665Y	NOW	JC701544N	19 Apr 2016**
**(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	KANHAIYA PANDEY	13989739H	NOW	JC701545W	02 May 2016***
HAVILDAR	CHITTA RANJAN RAY PRADHAN	13989816M	NOW	JC701546Y	02 May 2016***
HAVILDAR	GOUTAM PARIDA	13989814F	NOW	JC701547F	01 May 2016
HAVILDAR	SANKARAN N	13989817P	NOW	JC701548K	04 May 2016***
HAVILDAR	SUSANTA KUMAR SWAIN	13989815K	NOW	JC701549M	01 May 2016
HAVILDAR	MAHENDER KUMAR	13990110K	NOW	JC701550F	01 May 2016
HAVILDAR	JITENDRA MOHAN THAKUR	13990247W	NOW	JC701551K	14 May 2016***
HAVILDAR	ABBAS ALI SHAIKH	13990331W	NOW	JC701552M	12 May 2016***
*** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	DEBABRATA SAMANTA	13990328W	NOW	JC701587H	01 Jun 2016
HAVILDAR	SUSHIL KUMAR LAWANIA	13990384P	NOW	JC701588L	01 Jun 2016
HAVILDAR	SALGUDE SUGRIV NAVANATH	13990412W	NOW	JC701589N	01 Jun 2016
HAVILDAR	OM BIR	13990430Y	NOW	JC701590H	01 Jun 2016
HAVILDAR	OM VIR SINGH	13990465P	NOW	JC701591L	01 Jun 2016
HAVILDAR	JAGDISH PRASAD	13990509F	NOW	JC701592N	02 Jun 2016#
HAVILDAR	SURESH KUMAR	13990539Y	NOW	JC701593W	01 Jun 2016
HAVILDAR	SUBBA REDDY RAVI PATI	13990585N	NOW	JC701594Y	06 Jun 2016#
HAVILDAR	RANGA NAYAKULU B	13990586W	NOW	JC701595F	01 Jun 2016
HAVILDAR	KUNDAN SINGH MEHRA	13990662X	NOW	JC701596K	01 Jun 2016
#(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)					

HAVILDAR	AWADHESH SINGH YADAV	13990627P	NOW	JC701752H	09 Jul 2016##
HAVILDAR	JAIBIR SINGH	13990595X	NOW	JC701658Y	01 Jul 2016
HAVILDAR	KANITHI KARU NAIDU	13990790P	NOW	JC701659F	01 Jul 2016
HAVILDAR	KILLI RAVI KUMAR	13990792A	NOW	JC701660W	01 Jul 2016
HAVILDAR	TRUNO NARAYANA RAO	13990793H	NOW	JC701661Y	01 Jul 2016
HAVILDAR	CHEKKA CHANDRA RAO	13990794L	NOW	JC701662F	01 Jul 2016
HAVILDAR	VASUDEVA RAO VAKAMULLU	13990795N	NOW	JC701663K	01 Jul 2016
HAVILDAR	MAHENDRA SAHOO	13991038L	NOW	JC701664M	01 Jul 2016
HAVILDAR	DHIRAJ MONDAL	13990992W	NOW	JC701665P	01 Jul 2016
HAVILDAR	UDAY CHANDRA RAY	13990993Y	NOW	JC701666X	01 Jul 2016
##(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	VIRENDRA KUMAR	13990914Y	NOW	JC701685H	01 Aug 2016
HAVILDAR	RAJESH YADAV	05451634F	NOW	JC701686L	01 Aug 2016
HAVILDAR	PRAMODA KUMAR SAMAL	13991153L	NOW	JC701687N	01 Aug 2016
HAVILDAR	M THIRUMURUGAN	13991288M	NOW	JC701688W	01 Aug 2016
HAVILDAR	GURNAM SINGH	13991310M	NOW	JC701689Y	01 Aug 2016
HAVILDAR	JARNAIL SINGH MANHAS	13991308P	NOW	JC701690N	01 Aug 2016
HAVILDAR	SUKHWINDER SINGH	13991306K	NOW	JC701691W	01 Aug 2016
HAVILDAR	SHAKTI CHAND	13991307M	NOW	JC701693F	01 Aug 2016
HAVILDAR	RAM RATTAN	13991372M	NOW	JC701694K	01 Aug 2016
HAVILDAR	RAJKUMAR A	13991405M	NOW	JC701695M	01 Aug 2016
HAVILDAR	K PALANI KUMAR	13991468P	NOW	JC701696P	01 Aug 2016
HAVILDAR	DAHAKA RAJESH NAGORAO	13991633P	NOW	JC701697X	03 Aug 2016###
HAVILDAR	LANJEWAR SUNIL BHIWA	13991634X	NOW	JC701698A	01 Aug 2016
HAVILDAR	GEEWAN RAM	13991806F	NOW	JC701699H	01 Aug 2016
HAVILDAR	ASHOK KUMAR	13991743K	NOW	JC701700M	01 Aug 2016
HAVILDAR	PRADEEP KUMAR DAS	13991744M	NOW	JC701701P	01 Aug 2016
HAVILDAR	NAHAR SINGH	13991712K	NOW	JC701703A	01 Aug 2016
HAVILDAR	MEKA RAM GODARA BISHNOI	13991807K	NOW	JC701703A	02 Aug 2016###
HAVILDAR	SURENDER SINGH	13991745P	NOW	JC701704H	01 Aug 2016
HAVILDAR	ASHOK KUMAR	13991843P	NOW	JC701705L	01 Aug 2016
HAVILDAR	ANNACHATRE SANJAY BASLING	13991899F	NOW	JC701706N	01 Aug 2016
###(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (SKT)

HAVILDAR	SANJIB KUMAR NATH	13984096M	NOW	JC701462L	01 Apr 2016
HAVILDAR	DILEEP KUMAR MISHRA	13984491A	NOW	JC701463N	01 Apr 2016
HAVILDAR	RADHA KRISHNA KEWAT	13984525H	NOW	JC701464W	01 Apr 2016

HAVILDAR	GAJARE UTTAM BHAI SAHEB	13984589N	NOW	JC701465Y	01 Apr 2016
HAVILDAR	DINESH CHANDRA RAI	13984612W	NOW	JC701466F	01 Apr 2016
HAVILDAR	RAJ KUMAR SINGH	13984616M	NOW	JC701467K	01 Apr 2016
HAVILDAR	RAJESH KUMAR	13984621X	NOW	JC701468M	01 Apr 2016
HAVILDAR	ARUN KUMAR MISHRA	13984620P	NOW	JC701469P	01 Apr 2016
HAVILDAR	PRAMOD KUMAR	13984655L	NOW	JC701470K	01 Apr 2016
HAVILDAR	SUBHASH CHANDRA	13984656N	NOW	JC701529Y	15 Apr 2016*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	ASHISH KUMAR MISRA	13984711Y	NOW	JC701557L	01 May 2016
HAVILDAR	SOHAN SINGH	13984981N	NOW	JC701558N	01 May 2016
HAVILDAR	UDAI VIR	13985080N	NOW	JC701559W	01 May 2016
HAVILDAR	DHURA RAM YADAV	13985291W	NOW	JC701561N	01 May 2016
HAVILDAR	RAJBIR SINGH	13985360F	NOW	JC701562W	01 May 2016
HAVILDAR	DHIRAJ KUMAR SINGH	13985389K	NOW	JC701563Y	01 May 2016
HAVILDAR	RAVINDRA SINGH	13985459X	NOW	JC701564F	01 May 2016
HAVILDAR	BALBIR SINGH	13985622M	NOW	JC701579K	01 Jun 2016
HAVILDAR	SAWANT BHAOO GANGA RAM	13985650Y	NOW	JC701580Y	01 Jun 2016
HAVILDAR	TARANISEN SAHOO	13985690A	NOW	JC701581F	01 Jun 2016
HAVILDAR	KRISHNA KUMAR YADAV	13985778K	NOW	JC701583M	01 Jun 2016
HAVILDAR	CHARAN SINGH	13985907Y	NOW	JC701584P	01 Jun 2016
HAVILDAR	MAHESH KUMAR MALLAH	13987110Y	NOW	JC701585X	08 Jun 2016**
HAVILDAR	T SARAVANAN	13984944A	NOW	JC701586A	01 Jun 2016
**(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	AJITHA KUMAR J	13986277W	NOW	JC701753L	14 Jul 2016***
*** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 23 Jun 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	YOGENDRA	13987052A	NOW	JC701645F	01 Jul 2016
HAVILDAR	HARI PAL SINGH	13987080M	NOW	JC701646K	01 Jul 2016
HAVILDAR	SUBHASH CHAND	13987204W	NOW	JC701647M	02 Jul 2016#
HAVILDAR	SHYAMJEET SINGH	13987145P	NOW	JC701648P	01 Jul 2016
HAVILDAR	RAKESH SINGH	13987148H	NOW	JC701649X	01 Jul 2016
HAVILDAR	M ARUMUGAM	13987450F	NOW	JC701650M	01 Jul 2016
HAVILDAR	ALAGUTHAMBIL	13987447F	NOW	JC701651P	01 Jul 2016
HAVILDAR	TILAK DAS	13987462W	NOW	JC701652X	01 Jul 2016
HAVILDAR	UMESH SINGH YADAV	13987466M	NOW	JC701653A	01 Jul 2016
HAVILDAR	ASHOK KUMAR	13985777F	NOW	JC701654H	01 Jul 2016

HAVILDAR	NARSINGH CHAUHAN	13987498P	NOW	JC701655L	04 Jul 2016#
HAVILDAR	JOGENDER SINGH	13987494Y	NOW	JC701656N	01 Jul 2016
HAVILDAR	SIDDHA NATH PAL	13987467P	NOW	JC701657W	01 Jul 2016
HAVILDAR	SURENDER SINGH NATHWAT	13987486A	NOW	JC701678M	01 Jul 2016
#(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SHANKAR JEE SINGH	13987733H	NOW	JC701679P	01 Aug 2016
HAVILDAR	AJAY PRATAP SINGH	13987594K	NOW	JC701680K	01 Aug 2016
HAVILDAR	ARDHI MADHUSUDAN RAO	13987593F	NOW	JC701681M	24 Aug 2016##
HAVILDAR	MANORANJAN NAYAK	13987802N	NOW	JC701725Y	01 Aug 2016
HAVILDAR	RAMA CHANDRA DASH	13987801L	NOW	JC701682P	01 Aug 2016
HAVILDAR	UMESH PRASAD YADAV	13987784W	NOW	JC701683X	01 Aug 2016
HAVILDAR	SANJAY KUMAR	13987785Y	NOW	JC701684A	01 Aug 2016
##(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)					

A K TEWARI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 43, dated 19th January 2017—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire with permission to retain their rank and wearing of uniform :

TERRITORIAL ARMY
RETIREMENT

Lt Col Siddharth Niyogi	TA(M)-1163	AMC(TA)	13 Feb 2014 (AN)
Lt Col RK Gupta	TA(M)-1176	AMC(TA)	13 Feb 2014 (AN)

M P SINGH
Under Secy,

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No 44, dated 20th January 2017—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh Manoj Bali, Outstanding Scientist & Director Low Intensity Conflicts, DRDO HQ has been retired from service with effect from 28 Feb 2017 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 Mar 2017 (F/N).

RAJEEV RANJAN
Addl. Director (DOP/DRDS-II)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in